



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 37] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 12—सितम्बर 18, 2009 (भाद्रपद 21, 1931)

No. 37] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 12—SEPTEMBER 18, 2009 (BHADRA 21, 1931)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग I—खण्ड 4

### [PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 12 सितम्बर 2009

सं. 494, दिनांक 13 जुलाई 2009—राष्ट्रपति, श्री संजय कुमार ओझा, आई एफ एस (सी जी : 89), को 30.06.2009 (अपराह्न) से केन्द्र में उनकी प्रतिनियुक्ति की अधिकतम अनुमेय सात वर्ष की कार्य-अवधि में से शेष अवधि के लिए अर्थात् 13.06.2013 तक अथवा अगले आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, रक्षा मंत्रालय में निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं। केन्द्र में श्री ओझा का प्रतिनियुक्ति कार्यकाल 14 जून 2006 से है।

राष्ट्रपति, श्रीमती दीप्ति मोहिल चावला, आई डी ए एस (1995), उप सचिव, रक्षा मंत्रालय, को 01.07.2009 (पूर्वाह्न) से 17.06.2012 तक अथवा अगले आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, इसी मंत्रालय में निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति, श्रीमती उमा नन्दूरी, आई एफ एस (उड़ीसा : 1993), उप सचिव, रक्षा मंत्रालय, को 06.07.2009 (पूर्वाह्न) से 31.03.2014 तक

अथवा अगले आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, इसी मंत्रालय में निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

के. मुरली  
अवर सचिव

वित्त प्रभाग

सं. 495, दिनांक 13 जुलाई 2009—राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय (वित्त प्रभाग) के केन्द्रीय सचिवालय सेवा के श्री आर डी गुप्ता को वर्ष 2007 की चयन सूची में उनका नाम समावेश होने के आधार पर दिनांक 01.07.2007 से नियमित आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा (उप सचिव) के चयन ग्रेड में नियुक्त करते हैं।

आर सी मीना  
सहायक वित्तीय सलाहकार (स्थापना)

सं. 496, दिनांक 13 जुलाई 2009—राष्ट्रपति, श्री शेखर अग्रवाल, भा.प्र.से. (उ. प्र. : 77), वित्तीय सलाहकार (अर्जन), सदस्य (रक्षा अधिप्राप्ति बोर्ड) और अपर सचिव, रक्षा मंत्रालय को 10.07.2009 (अपराह्न) से रक्षा

मंत्रालय के भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग में अपर सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री (श्री ए के अन्तनी) के सहायक निजी सचिव के रूप में श्री सुरवीर सिंह पायल की नियुक्ति को 25 मई, 2009 के पूर्वाह्न से रक्षा मंत्री द्वारा अपने पद का परित्याग करने अथवा अगले आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, 9,300/- 34,800/- रुपए के वेतनमान + 4,800/- रुपए (ग्रेड वेतन) में वेतन बैंड-2 में जारी रखते हैं।

राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री (श्री ए के अन्तनी) के अपर निजी सचिव के रूप में श्री टी प्रताप की नियुक्ति को 25 मई, 2009 के पूर्वाह्न से रक्षा मंत्री द्वारा अपने पद का परित्याग करने अथवा अगले आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, 15,600/- 39,100/- रुपए के वेतनमान + 6,600/- रुपए (ग्रेड वेतन) में वेतन बैंड-3 में जारी रखते हैं।

राष्ट्रपति, श्री बी मदन मोहन रेड्डी की, रक्षा राज्य मंत्री (श्री एम एम पल्लम राजू) के अपर निजी सचिव के पद पर नियुक्ति को, 15,600/- 39,100/- रुपए के वेतनमान + 6,600/- रुपए (ग्रेड वेतन) में, वेतन बैंड-3 में, 01 जून, 2009 से रक्षा राज्य मंत्री द्वारा उनके पद का परित्याग करने अथवा अगले आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, जारी रखते हैं।

राष्ट्रपति, श्री बी गंगाधर की रक्षा राज्य मंत्री (श्री एम एम पल्लम राजू) के सहायक निजी सचिव के पद पर नियुक्ति को 9,300/- 34,800/- रुपए के वेतनमान + 4,800/- रुपए (ग्रेड वेतन) में वेतन बैंड-2 में 01 जून, 2009 के पूर्वाह्न से रक्षा राज्य मंत्री द्वारा पद का परित्याग करने अथवा अगले आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, जारी रखते हैं।

राष्ट्रपति, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सहायक श्री तुअल जा काम का नाम संयुक्त विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2005 के आधार पर परीक्षा कोट के मद्दे वर्ष 2005 की अनुभाग अधिकारी ग्रेड की चयन सूची में शामिल किए जाने के फलस्वरूप उन्हें 29.06.2009 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश जारी होने तक रक्षा मंत्रालय में 9,300/- 34,800/- रुपए + 4,800/- रुपए ग्रेड वेतन में नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त नियुक्ति श्री कैलाश चन्द्र बनाम भारत संघ द्वारा दायर उच्च न्यायालय, दिल्ली में लम्बित अदालती मामला रिट याचिका (सी) सं. 13245-60/2005 और श्री सौरांशु सिन्हा बनाम भारत संघ द्वारा दायर केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, दिल्ली में लम्बित मामला सं. ओ ए 1083/2007 और एम ए सं. 1171/2007 के परिणाम के अध्वधीन है। अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए अनुशंसित श्री तुअल जा काम की वरिष्ठता केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संघ बनाम केन्द्रीय सचिवालय सेवा सीधी भर्ती सहायक संघ के मामले में रिट याचिका (सी) सं. 4876/2007 के अंतिम परिणाम के अध्वधीन होगी।

राष्ट्रपति, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के सहायक श्री जोसेफ सेबश्चियन का नाम संयुक्त विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2005 के आधार पर परीक्षा कोट के मद्दे वर्ष 2005 की अनुभाग अधिकारी ग्रेड की चयन सूची में शामिल किए जाने के फलस्वरूप, उन्हें 03.07.2009 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश जारी होने तक 9,300/- 34,800/- रुपए के वेतनमान + 4,800/- रुपए के ग्रेड वेतन में नियमित आधार पर रक्षा मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त नियुक्ति श्री कैलाश चन्द्र बनाम भारत संघ द्वारा दायर उच्च न्यायालय, दिल्ली में लम्बित अदालती मामला रिट याचिका (सी) सं. 13245-60/2005 और श्री सौरांशु सिन्हा बनाम भारत संघ द्वारा दायर केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, दिल्ली में लम्बित मामला सं. ओ ए 1083/2007 और एम ए सं. 1171/2007 के परिणाम के अध्वधीन है। अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए अनुशंसित श्री जोसेफ सेबश्चियन की वरिष्ठता केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संघ बनाम केन्द्रीय सचिवालय सेवा सीधी भर्ती सहायक संघ के मामले में रिट याचिका (सी) सं. 4876/2007 के अंतिम परिणाम के अध्वधीन होगी।

राष्ट्रपति, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सहायक श्री सुजीत कुमार का नाम संयुक्त विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2005 के आधार पर परीक्षा कोट के मद्दे वर्ष 2005 की अनुभाग अधिकारी ग्रेड की चयन सूची में शामिल किए जाने के फलस्वरूप उन्हें 10.06.2009 (अपराह्न) से अगले आदेश जारी होने तक 9,300/- 34,800/- रुपए के वेतनमान + 4,800/- रुपए के ग्रेड वेतन में नियमित आधार पर रक्षा मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त नियुक्ति श्री कैलाश चन्द्र बनाम भारत संघ द्वारा दायर उच्च न्यायालय, दिल्ली में लम्बित अदालती मामला रिट याचिका (सी) सं. 13245-60/2005 और श्री सौरांशु सिन्हा बनाम भारत संघ द्वारा दायर केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, दिल्ली में लम्बित मामला सं. ओ ए 1083/2007 और एम ए सं. 1171/2007 के परिणाम के अध्वधीन है। अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए अनुशंसित श्री सुजीत कुमार की वरिष्ठता केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संघ बनाम केन्द्रीय सचिवालय सेवा सीधी भर्ती सहायक संघ के मामले में रिट याचिका (सी) सं. 4876/2007 के अंतिम परिणाम के अध्वधीन होगी।

के मुरली  
अवर सचिव

सेना शाखा

सं. 497, दिनांक 13 जुलाई 2009—राष्ट्रपति जी, निम्नलिखित को सहर्ष नियुक्त करते हैं :—

नियमित सेना

अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन)

निम्नलिखित जैण्टलमैन कैडेट्स जो कि, 16 विश्वविद्यालय प्रवेश योजना (यू ई एस) पाठ्यक्रम के हैं, को लेफ्टिनेंट के पद पर उनके सम्मुख अंकित तिथि से सेना अनुदेश 2/93, यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत यू ई एस पाठ्यक्रम वालों को पूर्व-आयोग प्रशिक्षण अवधि के लिये जो कि भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून में प्रशिक्षणरत हैं, अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) अनुदान किया जाता है :—

आईएमए सं., नाम, एसएस संख्या, आर्म/सर्विस एवं अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) तिथि

16 विश्वविद्यालय प्रवेश योजना पाठ्यक्रम

यू/827, राहुल बहल (43159वाई), ईएमई, 16 जुलाई 2007

यू/836, रुबेन पॉल मैथ्यू (43168ए), इंजीनियर्स, 16 जुलाई 2007

जैण्टलमैन कैडेट्स को दिये गये आर्म/सर्विस केवल प्रशिक्षण के दौरान तक की मान्य है।

राहुल शर्मा  
ले. कर्नल  
एएमएस-8बी

#### नौसेना शाखा

सं. 498, दिनांक 14 जुलाई 2009--दिनांक 19 दिसम्बर 2007 के पत्र संख्या सीपी(जी)/0667/कोन/मैड पिजी के अंतर्गत परीवीक्षा की अवधि संतोषजनक पूरा करने के फलस्वरूप भारत के राष्ट्रपति इस अधिसूचना के परिशिष्ट अ में सूचीबद्ध भारतीय नौसेना के निम्नलिखित चिकित्सा भौतिक विज्ञानी को समूह क राजपत्रित अधिकारी उसके नाम के आगे दिखाई गई तिथि से मूल सामर्थ्य में नियुक्ति को अनुमोदित करते हैं :--

नाम, पद एवं पुष्टि की तिथि

श्रीमती कीर्ति त्यागी, चिकित्सा भौतिक विज्ञानी, 19 दिसम्बर 2006

श्रीमती देबलीन मुखर्जी, चिकित्सा भौतिक विज्ञानी, 19 दिसम्बर 2006

दिनांक 19 दिसम्बर 2007 के पत्र संख्या सीपी(जी)/0667/कोन/मैड फिजी के अंतर्गत परीवीक्षा की अवधि संतोषजनक पूरा करने के फलस्वरूप भारत के राष्ट्रपति इस अधिसूचना के परिशिष्ट अ में सूचीबद्ध भारतीय नौसेना के निम्नलिखित व्यवसाय चिकित्सक को समूह क राजपत्रित अधिकारी उसके नाम के आगे दिखाई गई तिथि से मूल सामर्थ्य में नियुक्ति को अनुमोदित करते हैं :--

नाम, पद एवं पुष्टि की तिथि

श्री श्रवण कुमार सिंह, व्यवसाय चिकित्सक, 30 नवम्बर 2006

पी पी तनेजा  
उप निदेशक  
सिविलियन कार्मिक

#### रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

सं. 499, दिनांक 14 जुलाई 2009--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :--

राष्ट्रपति महोदय, निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के आगे दर्शाई गई तारीख से 8,000-275-13,500/- रुपये के वेतनमान में दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर रक्षा अनुसंधान तथा विकास सेवा में अस्थायी वैज्ञानिक 'बी' (ग्रुप 'ए') के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं (पूर्व-परिशोधित)।

क्रम सं., पिन संख्या, नाम, स्थापना/प्रयोगशाला एवं नियुक्ति की तिथि

1. 2007एबी1003, श्री अरुण प्रकाश एच, एडीई, बैंगलौर, 23 मई 2007

2. 2007एबी1308, श्री सुरेश बाबु गोली, एसएल, हैदराबाद, 23 मई 2007

3. 2007एबी1233, श्री रमेश कुमार अग्निहोत्री, एआरडीई, पूणे, 23 मई 2007

4. 2006एबी1196, श्री अभिषेक गुप्ता, एआरडीई, पूणे, 27 अप्रैल 2006

5. 2007एबी1232, मिस. गुंजन कुमारी, एआरडीई, पूणे, 23 मई 2007

6. 2005एबी1060, श्री मून कुमार छेत्री, केयर, बैंगलौर, 13 जून 2005

7. 2007एबी1051, मिस. लेक्सी अलेक्जेंडर, केयर, बैंगलौर, 23 मई 2007

8. 2007एबी1052, श्री शिबुमन अलमपट्टा, केयर, बैंगलौर, 07 जून 2007

9. 2007एबी1046, श्री हिमांशु कुमार स्वामी, केयर, बैंगलौर, 23 मई 2007

10. 2003एबी1041, श्री राजेश पांडुरंग मेंधे, सीफीज, दिल्ली, 26 दिसम्बर 2003

11. 2007एबी1113, मिस. के विजयालक्ष्मी, सीपीआरडीई, चैन्नै, 23 मई 2007

12. 2006एबी1054, श्री विनय वर्मा, डेयर, बैंगलौर, 27 अप्रैल 2006

13. 2007एबी1277, श्री आशुतोष पंचल, डीएमआरएल, हैदराबाद, 23 मई 2007

14. 2006एबी1250, श्री हिमालय बसुमातारी, डीएमआरएल, हैदराबाद, 27 अप्रैल 2006

15. 2005एबी1556, श्री डी एम राज कुमार, डीएमआरएल, हैदराबाद, 09 जून 2005

16. 2008एबी1531, श्री मृत्युंजय हाजरा, डीएमआरएल, हैदराबाद, 03 दिसम्बर 2008

17. 2007एबी1279, श्री सब्यासाछी साहा, डीएमआरएल, हैदराबाद, 23 मई 2007

18. 2007एबी1100, श्री के नरेश, डीआरडीएल, हैदराबाद, 23 मई 2007

19. 2007एबी1104, श्री संजीव मलराम, डीआरडीएल, हैदराबाद, 28 मई 2007

20. 2007एबी1341, श्री संतोष कुमार, डीआरडीएल, हैदराबाद, 04 सितम्बर 2007

21. 2006एबी1327, श्री माया नरसिंग राव, जीटीआरई, बैंगलौर, 27 अप्रैल 2006

22. 2007एबी1118, श्री सुशील आनन्द, जीटीआरई, बैंगलौर, 23 मई 2007

23. 2005एबी1086, श्री राजीव कुमार, ईस्सा, दिल्ली, 14 अप्रैल 2005

24. 2005एबी1380, श्री आशुतोष कुमार, आईएनएस, शिवाजी, 13 सितम्बर 2005

25. 2003एबी1044, श्री बिप्लव कुमार सरकार, आईटीआर, बालासौर, 06 मार्च 2003

26. 2007एबी1167, मिस. अनुपमा जी आर, एनपीओएल, कोच्ची, 30 मई 2007

27. 2006एबी1317, श्री डी आर फर्नांडिस, एनपीओएल, कोच्ची, 28 सितम्बर 2006

28. 2007एबी1262, श्री सत्या मूर्ति कुमारी, एनएसटीएल, विशाखापत्तनम, 14 नवम्बर 2007

29. 2007एबी1218, श्री शाहबाज साह, पीएक्सई, बालासोर, 23 मई 2007

30. 2007एबी1122, श्री सी भास्कर रेड्डी, आरसीआई, हैदराबाद, 23 मई 2007

31. 2007एबी1130, श्री पमपना सुरेश, आरसीआई, हैदराबाद, 23 मई 2007

32. 2007एबी1120, मिस. शीला हरिता, आरसीआई, हैदराबाद, 23 मई 2007

33. 2008एबी1284, श्री गांधी किरण कुमार, आरसीआई, हैदराबाद, 21 मई 2008

34. 2007एबी1137, श्री कौशल कुमार, आरसीआई, हैदराबाद, 09 अगस्त 2007

35. 2005एबी1497, श्री हरि सिंह, एसएफसी, जगदलपुर, 22 सितम्बर 2005

36. 2007एबी1190, श्री बी डी साहेब राव, वीआरडीई, अहमदनगर, 23 मई 2007

37. 2004एबी1199, श्री राकेश कुमार, टीबीआरएल, चंडीगढ़, 12 अप्रैल 2004

दिनांक 19 अगस्त 2008 के डीजीएन सं. डीओपी/08/82619/डीजीएन/वैज्ञानिक 'बी' के क्रम संख्या 68 में दर्शाये गये श्री हरि सिंह (उपयुक्त क्रम संख्या 35) से संबंधित प्रविष्टि हटायी गयी समझी जाए।

टी अब्दुर्रज्जाक  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

थल सेना विभाग

सं. 500, दिनांक 14 जुलाई 2009--राष्ट्रपति, निम्नलिखित भूतपूर्व जूनियर कमीशनड अफसरों को नौकरी पर बहाल करते हैं :--

नियमित सेना

रक्षा तथा सुरक्षा कोर

सूबेदार मेजर (जीडी) के रैंक में

सूबेदार मेजर पेमा राम (जेसी-197632एफ) पहले सीएमपी, 07 जनवरी 2006

नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में

सूबेदार नन्द राम आर्या (जेसी-204144के) पहले कुमाऊँ रेजिमेंट, 14 जुलाई 2008

सूबेदार दिलिप कुमार राजबंशी, एसएम (जेसी-185824एम) पहले आसाम रेजिमेंट, 14 जुलाई 2008

सूबेदार बिरेन्द कुमार सिन्हा (जेसी-750574पी) पहले ईएमई, 14 जुलाई 2008

सूबेदार वेन्कीडाचलम एस (जेसी-438614ए) पहले मद्रास रेजिमेंट, 14 जुलाई 2008

सूबेदार धरम सिंह (जेसी-508563एक्स) पहले सिख लाई रेजिमेंट, 14 जुलाई 2008

सूबेदार अमिया कुमार होट्टा (जेसी-842414पी) पहले नौदल, 04 सितम्बर 2008

नायब सूबेदार तेजिन्दर सिंह (जेसी-508547ए) पहले सिख लाई रेजिमेंट, 07 सितम्बर 2008

नायब सूबेदार प्रताप सिंह (जेसी-261165वाई) पहले आर्टिलरी रेजिमेंट, 01 अक्टूबर 2008

प्रदीप कुमार  
अवर सचिव

सं. 501, दिनांक 14 जुलाई 2009--डॉ. श्रीप्रकाश, आई आर पी एस (87) की रक्षा मंत्रालय में निदेशक के पद पर 15.04.2009 को कार्य अवधि के पूरी हो जाने तथा उन्हें प्रदत्त 16.04.2009 से 15.06.2009 तक अर्जित छुट्टी समाप्त होने पर उनकी सेवाएं 15.06.2009 (अपराह्न) से रेल मंत्रालय (रेल बोर्ड) को सौंपी जाती हैं।

के मुरली  
अवर सचिव

सेना शाखा

सं. 502, दिनांक 14 जुलाई 2009--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारी की सहर्ष पदोन्नति करने की अनुमति प्रदान करते हैं :--

प्रादेशिक सेना

प्रादेशिक कमीशन

कैप्टन बनाया जाता है

लै. बिबेक टंडन (टीए-42533), इन्फैन्ट्री, 01 सितम्बर 2006

लै. जोय दास गुप्ता (टीए-42577), इन्फैन्ट्री, 16 दिसम्बर 2004

लै. अनिल बलैहरा (टीए-42606), इन्फैन्ट्री, 29 जून 2008

लै. केवल कृष्ण (टीए-42637), इन्फैन्ट्री, 03 जनवरी 2009

जय राज  
अवर सचिव

## थल सेना विभाग

सं. 503, दिनांक 15 जुलाई 2009—राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं:—

## नियमित सेना

## रक्षा तथा सुरक्षा कोर

## स्थायी सूबेदार मेजर (जीडी) के रैंक में

सूबेदार बबन प्रसाद सिंह (जेसी-177808ए), 01 जनवरी 2009  
 सूबेदार जग बहादुर थापा (जेसी-180913एफ), 01 अप्रैल 2009  
 सूबेदार लक्ष्मी दत्त (जेसी-222803डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2009  
 सूबेदार बखशिश सिंह (जेसी-220202एम), 01 अप्रैल 2009  
 सूबेदार किशोर कुमार शुक्ला (जेसी-201020एक्स), 01 अप्रैल 2009  
 सूबेदार सरदार सिंह (जेसी-578025एफ), 01 अप्रैल 2009

## स्थायी सूबेदार (जीडी) के रैंक में

नायब सूबेदार बैजनाथ प्रसाद (जेसी-95996जेड), 01 जनवरी 2009  
 नायब सूबेदार दयानन्द (जेसी-841247एक्स), 01 अप्रैल 2009  
 नायब सूबेदार देवेन्द्र सिंह बामेल (जेसी-235821एक्स), 01 अप्रैल 2009  
 नायब सूबेदार हिम्मत सिंह रावत (जेसी-212930एक्स), 01 अप्रैल 2009  
 नायब सूबेदार मानबर सिंह रावत (जेसी-528816एच), 01 अप्रैल 2009

## स्थायी सूबेदार मेजर (जीडी) के रैंक में

सूबेदार अजाइब सिंह (जेसी-218161पी), 01 मई 2009  
 सूबेदार सरबजित सिंह (जेसी-508008के), 01 मई 2009  
 सूबेदार भगत सिंह (जेसी-167104एच), 01 मई 2009

## स्थायी सूबेदार (जीडी) के रैंक में

नायब सूबेदार गोपे चन्द (जेसी-236840पी), 01 जनवरी 2009  
 नायब सूबेदार विनोदन भावुक्का पाराक्कान्डी (जेसी-841233एक्स), 01 मार्च 2009  
 नायब सूबेदार दलिप सिंह (जेसी-488870एल), 01 मई 2009  
 नायब सूबेदार हारून अलि खान (जेसी-449050एच), 01 मई 2009  
 नायब सूबेदार ओंकार सिंह वालिया (जेसी-579273डब्ल्यू), 01 मई 2009  
 नायब सूबेदार पूरन सिंह (जेसी-262532एम), 01 मई 2009  
 नायब सूबेदार मेमपाल सिंह (जेसी-569078वाई), 01 मई 2009  
 नायब सूबेदार राम सिंह पंवार (जेसी-528021पी), 01 मई 2009

## स्थायी सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

नायब सूबेदार मेला सिंह (जेसी-841709वाई), 01 मई 2009  
 नायब सूबेदार दिलावर सिंह (जेसी-841711डब्ल्यू), 01 मई 2009

## स्थायी सूबेदार मेजर (जीडी) के रैंक में

सूबेदार यासिन खान (जेसी-208047के), 01 मई 2009

## स्थायी सूबेदार (जीडी) के रैंक में

नायब सूबेदार कनक कुमार सेकिया (जेसी-841226एफ), 01 फरवरी 2009  
 नायब सूबेदार जगन सिंह (जेसी-579157एफ), 01 मई 2009  
 नायब सूबेदार ईन्द्र राज सिंह (जेसी-220104एम), 01 मई 2009  
 नायब सूबेदार हरदीप सिंह शासन (जेसी-428270वाई), 01 मई 2009  
 नायब सूबेदार वी बी रवि प्रकाश (जेसी-111158एच), 01 जून 2009  
 नायब सूबेदार जगदीश प्रसाद (जेसी-143671ए), 01 जून 2009  
 नायब सूबेदार सोम दत्त शर्मा (जेसी-225263एम), 01 जून 2009  
 नायब सूबेदार खिब सिंह (जेसी-841265ए), 01 जून 2009  
 नायब सूबेदार चितान्न राय (जेसी-202144एल), 01 जून 2009  
 नायब सूबेदार कृष्णा बहादुर गुरूंग (जेसी-602156एन), 01 जून 2009  
 नायब सूबेदार प्रदीप कुमार गुरूंग (जेसी-612193पी), 01 जून 2009

## नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में

हवलदार भागवत लाल (सं. 14319653एल अब जेसी-842516एल), 01 मई 2009 \*  
 \*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2009)  
 हवलदार राम भज (सं. 10436533वाई अब जेसी-842535डब्ल्यू), 01 जून 2009 \*\*  
 हवलदार वल्सन थप्पाली (सं. 10290215वाई अब जेसी-842537एफ), 01 जून 2009 \*\*  
 हवलदार सुगथन के सी (सं. 10358063के अब जेसी-842538के), 01 जून 2009 \*\*  
 हवलदार नेतर प्रकाश शर्मा (सं. 9081827एफ अब जेसी-842543बी), 01 जून 2009 \*\*  
 हवलदार देव राज (सं. 2469884एच अब जेसी-842552डब्ल्यू), 01 जून 2009 \*\*  
 हवलदार रोशन लाल (सं. 10465681एम अब जेसी-842553वाई), 01 जून 2009 \*\*  
 हवलदार धर्म चन्द शर्मा (सं. 3973501एफ अब जेसी-842554एफ), 01 जून 2009 \*\*

हवलदार करनल सिंह (सं. 10196249एन अब जेसी-842557पी),  
01 जून 2009\*\*

हवलदार सत्यदेव सिंह (सं. 10212096एफ अब जेसी-842565एन),  
01 जून 2009\*\*

हवलदार विद्या प्रसाद (सं. 10181041एन अब जेसी-842568एफ),  
01 जून 2009\*\*

हवलदार ईन्सपेक्टर सिंह (सं. 10404354एल अब जेसी-842569के),  
01 जून 2009\*\*

हवलदार पशोरी लाल (सं. 2466917एक्स अब जेसी-842570वाई),  
01 जून 2009\*\*

हवलदार काका सिंह (सं. 10478354ए अब जेसी-842573एम),  
01 जून 2009\*\*

हवलदार राजवीर सिंह (सं. 10404372एन अब जेसी-842577एच),  
01 जून 2009\*\*

हवलदार राम अंगद साह (सं. 13921882डब्ल्यू अब जेसी-  
842581एल), 01 जून 2009\*\*

\*\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जून 2009)

हवलदार रंगा राव मारुती देसाई (सं. 10149701एम अब जेसी-  
842461एम), 18 मार्च 2009\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 जनवरी 2009)

हवलदार गंगा राम (सं. 10181137डब्ल्यू अब जेसी-842498एन),  
01 अप्रैल 2009\*\*

हवलदार जन सिंह थापा (सं. 10243700एच अब जेसी-842500ए),  
01 अप्रैल 2009\*\*

हवलदार सरोज राव (सं. 2975166एल अब जेसी-842501एच),  
01 अप्रैल 2009\*\*

हवलदार भानु गुरुंग (सं. 5343071एच अब जेसी-842502एल),  
01 अप्रैल 2009\*\*

हवलदार कुन्ही कन्नन पावूर (सं. 10289047वाई अब जेसी-  
842506एफ), 01 अप्रैल 2009\*\*

\*\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2009)

हवलदार राम सिंह (सं. 4167689ए अब जेसी-842513एक्स),  
01 मई 2009\*\*\*

हवलदार सुरेश बहादुर सिंह (सं. 10435714एक्स अब जेसी-  
842518डब्ल्यू), 01 मई 2009\*\*\*

हवलदार मेहर सिंह (सं. 14318391एन अब जेसी-842519वाई),  
01 मई 2009\*\*\*

हवलदार करम सिंह (सं. 11021163पी अब जेसी-842520एन),  
01 मई 2009\*\*\*

हवलदार लक्ष्मण दादु नलवाडे (सं. 10149523पी अब जेसी-  
842521डब्ल्यू), 01 मई 2009\*\*\*

हवलदार मेहर चन्द्र (सं. 10301778एफ अब जेसी-842526पी),  
01 मई 2009\*\*\*

हवलदार वी सुंदरेस्वरन (सं. 10165228डब्ल्यू अब जेसी-  
842527एक्स), 01 मई 2009\*\*\*

\*\*\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 मई 2009)

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार (लिपिक) ज्योतिष कुमार नन्दी (सं. 10273946डब्ल्यू अब  
जेसी-842507के), 30 अप्रैल 2009\*\*\*\*

\*\*\*\* (नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव  
डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2009)

हवलदार (लिपिक) कुन्हयाप्पन के (सं. 2572503डब्ल्यू अब जेसी-  
842509पी), 18 मई 2009\*\*\*\*

हवलदार (लिपिक) ए व्यंकट प्रसाद (सं. 2574656वाई अब जेसी-  
842510के), 01 मई 2009\*\*\*\*

हवलदार (लिपिक) शिव प्रकाश (सं. 14543252वाई अब जेसी-  
842511एम), 01 मई 2009\*\*\*\*

\*\*\*\* (नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव  
डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2009)

प्रदीप कुमार  
अवर सचिव

सं. 504, दिनांक 15 जुलाई 2009--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियाँ  
करते हैं :--

नियमित सेना

कोर ऑफ इंजीनियर्स

बंगाल इंजीनियर ग्रुप

नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में

हवलदार कुलदीप सिंह (सं. 1476793एल अब जेसी- 338674ए),  
04 मार्च 2009#

हवलदार नरेन्द्र पाल सिंह (सं. 1477504एक्स अब जेसी- 338675एच),  
02 मार्च 2009@

हवलदार नरेन्द्र सिंह (सं. 1477484पी अब जेसी- 338676एल),  
02 मार्च 2009@

हवलदार दर्शन सिंह (सं. 1477498पी अब जेसी- 338677एन),  
02 मार्च 2009@

## नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

हवलदार मनोज कुमार सिंह (सं. 1475852ए अब जेसी- 338678डब्ल्यू), 02 मार्च 2009@

हवलदार काशी राम यादव (सं. 1477114पी अब जेसी- 338679वाई), 03 मार्च 2009@

हवलदार सुरेश कुमार (सं. 1476982पी अब जेसी- 338680एन), 02 मार्च 2009@

हवलदार कमल सिंह राना (सं. 1477004ए अब जेसी- 338681डब्ल्यू), 02 मार्च 2009@

हवलदार उमा शंकर सिंह (सं. 1574342एफ अब जेसी- 338682वाई), 02 मार्च 2009@

हवलदार विनोद सिंह यादव (सं. 1574381ए अब जेसी- 338683एफ), 03 मार्च 2009@

## नायब सूबेदार (सर्वे) के रैंक में

हवलदार रमेश कुमार मौर्य (सं. 15344296पी अब जेसी- 338684के), 16 मार्च 2009%

हवलदार लखबीर सिंह (सं. 1478482डब्ल्यू अब जेसी- 338685एम), 12 मार्च 2009%

हवलदार योगेन्द्र सिंह (सं. 1478537पी अब जेसी- 338686पी), 13 मार्च 2009@

हवलदार शंकर सिंह सिजवाली (सं. 1478571पी अब जेसी- 338687एक्स), 09 मार्च 2009@

#(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2008)

%(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2009)

@(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2009)

## नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में

हवलदार दीवान सिंह (सं. 1476733डब्ल्यू अब जेसी- 338688ए), 28 अप्रैल 2009\*

हवलदार काशी नाथ नायक (सं. 1476948पी अब जेसी- 338689एच), 15 जनवरी 2009\$

हवलदार माखन सिंह (सं. 1477044एफ अब जेसी- 338690एक्स), 19 जनवरी 2009\$

हवलदार आजाद सिंह (सं. 1477515के अब जेसी- 338691ए), 14 मार्च 2009@

हवलदार जगपाल सिंह (सं. 1477124वाई अब जेसी- 338692एच), 01 अप्रैल 2009%

हवलदार हरी सिंह (सं. 1477516एम अब जेसी- 338693एल), 01 अप्रैल 2009#

हवलदार लाल सिंह नेगी (सं. 1477567ए अब जेसी- 338694एन), 25 अप्रैल 2009#

हवलदार गिरीश चन्द्र (सं. 1477614एम अब जेसी- 338695डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2009#

हवलदार खजान सिंह (सं. 1477636एल अब जेसी- 338696वाई), 02 अप्रैल 2009#

हवलदार तपन कुमार साहा (सं. 1474281ए अब जेसी- 338697एफ), 03 अप्रैल 2009#

हवलदार जशवन्त सिंह (सं. 1476473डब्ल्यू अब जेसी- 338698के), 01 अप्रैल 2009#

हवलदार जय भगवान (सं. 1476727एच अब जेसी- 338699के), 03 अप्रैल 2009#

हवलदार सुखदेव सिंह (सं. 1473628पी अब जेसी- 338700डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2009#

हवलदार रतन सिंह (सं. 1475301पी अब जेसी- 338701डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2009#

हवलदार जोगिन्दर सिंह (सं. 1475355डब्ल्यू अब जेसी- 338702एफ), 01 अप्रैल 2009#

हवलदार उपेन्द्रा कुमार (सं. 1494200डब्ल्यू अब जेसी- 338703के), 20 अप्रैल 2009#

हवलदार गुरमेल सिंह (सं. 1477397एफ अब जेसी- 338704एम), 01 अप्रैल 2009#

हवलदार इसलाम खान (सं. 1477689के अब जेसी- 338705पी), 03 अप्रैल 2009#

हवलदार प्रकाश चन्द्र भट्ट (सं. 1477720एल अब जेसी- 338706एक्स), 01 अप्रैल 2009#

हवलदार मुकेश कुमार (सं. 1477762 अब जेसी- 338707ए), 04 अप्रैल 2009#

हवलदार अशोक कुमार (सं. 1477778एच अब जेसी- 338708एच), 04 अप्रैल 2009#

हवलदार अवध बिहारी सिंह (सं. 1477779एल अब जेसी- 338709एल), 01 अप्रैल 2009#

हवलदार अशोक कुमार (सं. 1477913एल अब जेसी- 338710ए), 01 अप्रैल 2009#

हवलदार धरम राज (सं. 1477916वाई अब जेसी- 338711एच), 03 अप्रैल 2009#

हवलदार कलयान सिंह (सं. 1477954पी अब जेसी- 338712एल), 08 अप्रैल 2009#

हवलदार विनोद कुमार (सं. 1477956ए अब जेसी- 338713एन), 01 अप्रैल 2009#

हवलदार राम आसरे कुशवाहा (सं. 1477980डब्ल्यू अब जेसी-338714डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2009#

हवलदार मोहन गिरी (सं. 1478065के अब जेसी- 338715वाई), 01 अप्रैल 2009#

हवलदार जितेन्द्र कुमार सिंह (सं. 1478075एन अब जेसी-338716एफ), 02 अप्रैल 2009#

हवलदार बलविन्दर सिंह (सं. 1478085के अब जेसी- 338717के), 01 अप्रैल 2009#

हवलदार गोरा चन्द्र मण्डल (सं. 1478107एल अब जेसी-338718एम), 01 अप्रैल 2009#

हवलदार अनिल कुमार त्यागी (सं. 1478171एच अब जेसी-338719पी), 03 अप्रैल 2009#

हवलदार प्रेम सिंह (सं. 1478221एच अब जेसी- 338720के), 16 अप्रैल 2009#

हवलदार अमीनुल हक बरभुइया (सं. 1478270एल अब जेसी-338721एम), 16 अप्रैल 2009#

हवलदार धरमबीर सिंह (सं. 1478283एच अब जेसी- 338722पी), 17 अप्रैल 2009#

#### नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

हवलदार रविन्द्र नाथ चक्रवर्ती (सं. 1476364के अब जेसी-338723एक्स), 01 अप्रैल 2009@

हवलदार कुन्दन सिंह नागरकोटी (सं. 1477024एन अब जेसी-338724ए), 16 मार्च 2009@

हवलदार सुरेश चन्द्र (सं. 1477166एल अब जेसी- 338725एच), 31 मार्च 2009@

हवलदार राजेन्द्र सिंह नेगी (सं. 1477168डब्ल्यू अब जेसी-338726एल), 20 अप्रैल 2009@

हवलदार राजेन्द्र सिंह (सं. 1477169वाई अब जेसी- 338727एन), 01 अप्रैल 2009#

हवलदार बाल बुधे महादेव सदाशिव (सं. 1477173एन अब जेसी-338728डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2009#

हवलदार दुआर सिंह बिष्ट (सं. 1477201एच अब जेसी- 338729वाई), 01 अप्रैल 2009#

हवलदार प्रदीप कुमार (सं. 1477220एन अब जेसी- 338730एन), 06 अप्रैल 2009#

हवलदार श्याम लाल (सं. 1477223एफ अब जेसी- 338731डब्ल्यू), 09 अप्रैल 2009#

हवलदार राकेश सिंह (सं. 1477282एन अब जेसी- 338732वाई), 11 अप्रैल 2009#

#### नायब सूबेदार (सर्वे) के रैंक में

हवलदार रवि सिंह (सं. 1478426एक्स अब जेसी- 338733एफ), 01 अप्रैल 2009@

हवलदार ओम प्रकाश यादव (सं. 15344311वाई अब जेसी-338734के), 31 मार्च 2009@

हवलदार शाम लाल (सं. 1478554पी अब जेसी- 338735एम), 01 अप्रैल 2009#

हवलदार सतनाम सिंह (सं. 1478641एच अब जेसी- 338736पी), 01 अप्रैल 2009#

हवलदार दिलीप कुमार हलदर (सं. 1479206ए अब जेसी-338737एक्स), 17 अप्रैल 2009#

हवलदार नारायण सिंह गोर (सं. 1479219एक्स अब जेसी- 338738ए), 01 अप्रैल 2009#

हवलदार राकेश कुमार राय (सं. 15344314एम अब जेसी-338739एच), 29 अप्रैल 2009#

हवलदार सुजीत कुमार सिंह (सं. 15344340एन अब जेसी-338740एक्स), 01 अप्रैल 2009#

हवलदार दिनेश कुमार (सं. 15344302एक्स अब जेसी- 338741ए), 27 अप्रैल 2009#

हवलदार आलोक मिश्रा (सं. 15344352एच अब जेसी- 338742एच), 01 अप्रैल 2009#

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2008)

\$(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2009)

@(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2009)

%(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 29 मार्च 2009)

\$(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2009)

#### नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में

हवलदार सुरिन्द्र सिंह (सं. 1477205वाई अब जेसी- 338743एल), 09 मार्च 2009\*

हवलदार बहादुर सिंह (सं. 1478434डब्ल्यू अब जेसी- 338744एन), 01 मई 2009#

हवलदार असित धर (सं. 1478440के अब जेसी- 338745डब्ल्यू), 01 मई 2009#

हवलदार लाल सिंह (सं. 1478485के अब जेसी- 338746वाई), 01 मई 2009#



हवलदार विजय सिंह (सं. 1478544एल अब जेसी- 338747एफ),  
01 मई 2009#

हवलदार गुलाब सिंह (सं. 1478555एक्स अब जेसी- 338748के),  
01 मई 2009#

हवलदार भूपेन्द्र शाह (सं. 1478574एच अब जेसी- 338749एम),  
01 मई 2009#

हवलदार लखविंदर सिंह (सं. 1478609एन अब जेसी- 338750एफ),  
01 मई 2006#

हवलदार जय पाल (सं. 1478646एफ अब जेसी- 338751के),  
01 मई 2009#

हवलदार कैलाश चंद्र साहु (सं. 1478709वाई अब जेसी- 338752एम),  
01 मई 2009#

हवलदार सुरेन्द्र सिंह चंडेल (सं. 1478726वाई अब जेसी- 338753पी),  
01 मई 2009#

हवलदार परताप सिंह (सं. 1478751एक्स अब जेसी- 338754एक्स),  
02 मई 2009#

हवलदार करण सिंह (सं. 1478755एन अब जेसी- 338755ए),  
01 मई 2009#

हवलदार जगन सिंह (सं. 1478819एन अब जेसी- 338756एच),  
11 मई 2009#

नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

हवलदार लाल सिंह (सं. 1477730पी अब जेसी- 338757एल),  
23 अप्रैल 2009\$

हवलदार प्रेम कुमार (सं. 1477809एम अब जेसी- 338758एन),  
01 मई 2009\$

हवलदार जयपाल सिंह तोमर (सं. 1478016एफ अब जेसी-  
338759डब्ल्यू), 02 मई 2009\$

हवलदार कृष्णा देव शाह (सं. 1478051के अब जेसी- 338760एल),  
07 मई 2009\$

हवलदार सुंदर सिंह (सं. 1478144वाई अब जेसी- 338761एन),  
05 मई 2009\$

हवलदार ओम वीर (सं. 1478454के अब जेसी- 338762डब्ल्यू),  
08 मई 2009#

हवलदार नरेंद्रपाल सिंह (सं. 1478466वाई अब जेसी- 338763वाई),  
12 मई 2009#

हवलदार जगबन्धु मोहंता (सं. 1478490पी अब जेसी- 338764एफ),  
01 मई 2009#

हवलदार सत्य नारायण शर्मा (सं. 1478906एफ अब जेसी-  
338765के), 06 मई 2009#

हवलदार वधेला केसरभाई देवसि (सं. 1479233के अब जेसी-  
338766एम), 09 मई 2009#

हवलदार सुभाष चंद (सं. 1479328के अब जेसी- 338767पी),  
01 मई 2009#

नायब सूबेदार सर्वे के रैंक में

हवलदार योगेश कुमार वर्मा (सं. 15344337एन अब जेसी-  
338768एक्स), 11 मई 2009\$

हवलदार राज कुमार सिंह (सं. 15344324डब्ल्यू अब जेसी- 338769ए),  
05 मई 2009\$

हवलदार जैबेंद्र सिंह (सं. 1481530डब्ल्यू अब जेसी- 338770पी),  
18 मई 2009#

हवलदार संत बक्श सिंह (सं. 1474587एच अब जेसी- 338771एक्स),  
13 मई 2009#

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2009)

\$(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 अप्रैल 2009)

\$(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 मई 2009)

मुंबई इंजीनियर ग्रुप

नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में

हवलदार (जीडी) नायब सिंह (सं. 1570106एच अब जेसी- 351070ए),  
22 दिसम्बर 2008

हवलदार (जीडी) लीला राम (सं. 1570436एफ अब जेसी-  
351071एच), 31 दिसम्बर 2008

हवलदार (जीडी) मोगिस खान (सं. 1570668ए अब जेसी-  
351072एल), 31 जनवरी 2009

हवलदार (जीडी) मोहम्मद फारूक (सं. 1570747पी अब जेसी-  
351073एन), 17 फरवरी 2009

हवलदार (जीडी) राम गोपाल (सं. 1571316पी अब जेसी-  
351045डब्ल्यू), 09 दिसम्बर 2008

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 दिसम्बर 2008 से दी जाएगी)

हवलदार (जीडी) सरदुल सिंह (सं. 1572038वाई अब जेसी-  
351077के), 03 जनवरी 2009

हवलदार (जीडी) ज्ञान सिंह (सं. 1572340एक्स अब जेसी-  
351078एम), 02 जनवरी 2009

हवलदार (जीडी) पुंड सुधीर कुमार दत्तात्रय (सं. 1572369ए अब  
जेसी- 351079पी), 30 जनवरी 2009

हवलदार (जीडी) केशम सिंह (सं. 1572479पी अब जेसी- 351080के),  
04 फरवरी 2009

हवलदार (जीडी) गुरलाल सिंह (सं. 1572530के अब जेसी-  
351081एम), 24 जनवरी 2009

हवलदार (जीडी) विनय कुमार (सं. 1572574एफ अब जेसी-351082पी), 27 जनवरी 2009

हवलदार (जीडी) ओंकार सिंह (सं. 1572647एच अब जेसी-351083एक्स), 10 फरवरी 2009

हवलदार (जीडी) बाघ संतोष काशीनाथ (सं. 1572671वाई अब जेसी-351084ए), 16 फरवरी 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2009 से दी जाएगी)

हवलदार (जीडी) राजेंद्र साखरे (सं. 15562179डब्ल्यू अब जेसी-351089वाई), 02 फरवरी 2009

हवलदार (जीडी) कमलेश कुमार (सं. 1572976वाई अब जेसी-351090एन), 02 फरवरी 2009

हवलदार (जीडी) महा सिंह (सं. 1573220एल अब जेसी-351091डब्ल्यू), 02 फरवरी 2009

हवलदार (जीडी) सुखविंदर सिंह (सं. 1573318वाई अब जेसी-351092वाई), 09 फरवरी 2009

हवलदार (जीडी) कृष्ण पाल सिंह (सं. 1573378एन अब जेसी-351093एफ), 02 फरवरी 2009

हवलदार (जीडी) सीता राम राव (सं. 1573440पी अब जेसी-351094के), 02 फरवरी 2009

हवलदार (जीडी) सर्विंदर सिंह (सं. 1573481वाई अब जेसी-351095एम), 02 फरवरी 2009

हवलदार (जीडी) रविंद्र प्रकाश (सं. 1573499पी अब जेसी-351096पी), 13 फरवरी 2009

हवलदार (जीडी) भूपेंद्र सिंह (सं. 1573577एफ अब जेसी-351097एक्स), 05 फरवरी 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2009 से दी जाएगी)

हवलदार (जीडी) संकपाल लक्ष्मण भानुदास (सं. 1573952एफ अब जेसी-351098ए), 10 मार्च 2009

हवलदार (जीडी) आजाद सिंह (सं. 1573989एच अब जेसी-351099एच), 04 मार्च 2009

हवलदार (जीडी) कुलदीप सिंह (सं. 1573997एफ अब जेसी-351100एम), 12 मार्च 2009

हवलदार (जीडी) भालेराव भारत भानुदास (सं. 1574134एम अब जेसी-351101पी), 12 मार्च 2009

हवलदार (जीडी) पवार कृष्णात दत्तु (सं. 1574209वाई अब जेसी-351102एक्स), 05 मार्च 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2009 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) के रैंक में

हवलदार (क्लर्क जीडी) चेला मुरुगन जी (सं. 1579226एच अब जेसी-351069एल), 03 दिसम्बर 2008

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2008 से दी जायेगी)

हवलदार (क्लर्क जीडी) लक्ष्मी नारायण (सं. 1581289के अब जेसी-351075वाई), 30 जनवरी 2009

हवलदार (क्लर्क जीडी) देश राज (सं. 1580038एन अब जेसी-351076एफ), 07 फरवरी 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2009 से दी जायेगी)

हवलदार (क्लर्क जीडी) नित्यानंद सिंह कुशवाहा (सं. 1578418एन अब जेसी-351085एच), 02 मार्च 2009

हवलदार (क्लर्क जीडी) राम चंद्र शिवहरे (सं. 1580489एन अब जेसी-351086एल), 04 मार्च 2009

हवलदार (क्लर्क जीडी) मथाई थॉमस (सं. 1580499एक्स अब जेसी-351087एन), 06 मार्च 2009

हवलदार (क्लर्क जीडी) साजो जोस (सं. 1581183एक्स अब जेसी-351088डब्ल्यू), 05 मार्च 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2009 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार (संगीतकार) के रैंक में

हवलदार (संगीतकार) बेल बहादुर थापा (सं. 1572013एम अब जेसी-350728एच), 24 जनवरी 2008

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 24 जनवरी 2008 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में

हवलदार (जीडी) सुरजीत सिंह (सं. 1572648एल अब जेसी-351103ए), 27 फरवरी 2009

हवलदार (जीडी) प्रेमजीत सिंह (सं. 1572695एच अब जेसी-351104एच), 03 मार्च 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2009 से दी जायेगी)

हवलदार (जीडी) दलबीर सिंह (सं. 1572707एम अब जेसी-351105एल), 19 मार्च 2009

हवलदार (जीडी) मनमोहन सिंह (सं. 1573247एच अब जेसी-351106एन), 03 मार्च 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2009 से दी जायेगी)

हवलदार (जीडी) कुलबीर सिंह (सं. 1573656डब्ल्यू अब जेसी-351108वाई), 09 मार्च 2009

हवलदार (जीडी) हरदेव सिंह (सं. 1573698एच अब जेसी-351109एफ), 03 अप्रैल 2009

हवलदार (जीडी) रमेश चंद्र यादव (सं. 1573693के अब जेसी-351110डब्ल्यू), 18 मार्च 2009

हवलदार (जीडी) तफजुल रहमान (सं. 1573717एच अब जेसी-351111वाई), 28 मार्च 2009

हवलदार (जीडी) राम प्रकाश शर्मा (सं. 1573719एन अब जेसी-351112एफ), 24 मार्च 2009

हवलदार (जीडी) अखलेस्वर कुमार (सं. 1573760के अब जेसी-351113के), 16 मार्च 2009

हवलदार (जीडी) मोहिते पांडुरंग गणपती (सं. 1573750ए अब जेसी-351114एम), 03 अप्रैल 2009

हवलदार (जीडी) जैगडे सम्पत हरीबा (सं. 1573807के अब जेसी-351115पी), 17 मार्च 2009

हवलदार (जीडी) माने मधुकर सरजेराव (सं. 1574059एन अब जेसी-351116एक्स), 12 मार्च 2009

हवलदार (जीडी) सुर्यवंशी अंकुश निवृत्ती (सं. 1574082एफ अब जेसी-351117ए), 12 मार्च 2009

हवलदार (जीडी) पवार सुभाष कौंडीबा (सं. 1574085पी अब जेसी-351118एच), 02 मार्च 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2009 से दी जायेगी)

हवलदार (जीडी) पवार महादेव माणिकराव (सं. 1574104पी अब जेसी-351119एल), 23 मार्च 2009

हवलदार (जीडी) फडतरे किसन अप्पाजी (सं. 1574200के अब जेसी-351120ए), 16 मार्च 2009

हवलदार (जीडी) रोशन अली (सं. 1573636एन अब जेसी-351121एच), 04 मार्च 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2009 से दी जायेगी)

हवलदार (जीडी) विलास दाजी निकम (सं. 1575354एच अब जेसी-351126एफ), 15 अप्रैल 2009

हवलदार (जीडी) बेश मोहम्मद (सं. 1575376एफ अब जेसी-351127के), 21 अप्रैल 2009

हवलदार (जीडी) लक्ष्मण सिंह (सं. 1574360के अब जेसी-351128एम), 16 अप्रैल 2009

हवलदार (जीडी) परगट सिंह (सं. 1575128एल अब जेसी-351129पी), 16 अप्रैल 2009

हवलदार (जीडी) सपकाल बापुराव रामराव (सं. 1574767ए अब जेसी-351131एम), 21 अप्रैल 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2009 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) के रैंक में

हवलदार (क्लर्क जीडी) कुलदीप सिंह रावत (सं. 1574353एन अब जेसी-351107डब्ल्यू), 16 मार्च 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2009 से दी जायेगी)

हवलदार (क्लर्क जीडी) गोपाल राम जाट (सं. 1581737एल अब जेसी-351122एल), 01 अप्रैल 2009

हवलदार (क्लर्क जीडी) राजेश यादव (सं. 1581740एल अब जेसी-351123एन), 01 अप्रैल 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2009 से दी जायेगी)

हवलदार (क्लर्क जीडी) मरगले रावसो लक्ष्मण (सं. 1581388एम अब जेसी-351124डब्ल्यू), 02 अप्रैल 2009

हवलदार (क्लर्क जीडी) पितांबर दत्त (सं. 1581420एम अब जेसी-351125वाई), 08 अप्रैल 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2009 से दी जायेगी)

हवलदार (क्लर्क जीडी) शिलम गजानन नरहरी (सं. 1581131एफ अब जेसी-351130के), 25 अप्रैल 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2009 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में

हवलदार (जीडी) मुहम्मद हासिम (सं. 1573726के अब जेसी-351134ए), 20 मार्च 2009

हवलदार (जीडी) दर्शन सिंह (सं. 1573990एक्स अब जेसी-351135एच), 09 अप्रैल 2009

हवलदार (जीडी) पांडे धर्मेन्द्र भैयालाल (सं. 1574232एम अब जेसी-351136एल), 04 मई 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2009 से दी जायेगी।)

हवलदार (जीडी) अमरुद्धीन (सं. 1571628एल अब जेसी-351138डब्ल्यू), 02 मई 2009

हवलदार (जीडी) अशोक कुमार (सं. 1571514ए अब जेसी-351139वाई), 29 अप्रैल 2009

हवलदार (जीडी) चव्हाण राजेंद्र गंगाराम (सं. 1572180एच अब जेसी-351140एन), 02 मई 2009

हवलदार (जीडी) बलबीर सिंह (सं. 1573558डब्ल्यू अब जेसी-351141डब्ल्यू), 29 अप्रैल 2009

हवलदार (जीडी) ओम प्रकाश यादव (सं. 1574116के अब जेसी-351142वाई), 29 अप्रैल 2009

हवलदार (जीडी) रोशन अली (सं. 1574317एच अब जेसी-351143एफ), 20 अप्रैल 2009

हवलदार (जीडी) राजेश कुमार द्विवेदी (सं. 1574405वाई अब जेसी-351144के), 18 अप्रैल 2009

हवलदार (जीडी) भाग सिंह (सं. 1574502डब्ल्यू अब जेसी-351145एम), 18 अप्रैल 2009

हवलदार (जीडी) साखरे वशिष्ठ बाबुराव (सं. 1574863पी अब जेसी-351146पी), 24 अप्रैल 2009

हवलदार (जीडी) गुरुजीत सिंह (सं. 1575049डब्ल्यू अब जेसी-351147एक्स), 18 अप्रैल 2009

हवलदार (जीडी) फझरू (सं. 1575093ए अब जेसी-351148ए), 12 मई 2009

हवलदार (जीडी) बहादुर सिंह (सं. 1575122के अब जेसी-351149एच), 24 अप्रैल 2009

हवलदार (जीडी) सुखा राम चौधरी (सं. 1575137एम अब जेसी-351150एक्स), 21 अप्रैल 2009

हवलदार (जीडी) रणजीत सिंह (सं. 1575180एन अब जेसी-351151ए), 18 अप्रैल 2009

हवलदार (जीडी) कुलवंत सिंह (सं. 1575411वाई अब जेसी-351152एच), 27 मई 2009

हवलदार (जीडी) राजेंद्र सिंह (सं. 1575429पी अब जेसी-351153एल), 29 मई 2009

हवलदार (जीडी) शिरीष चंद्र आजाद (सं. 1575431एम अब जेसी-351154एन), 05 मई 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2009 से दी जायेगी।)

हवलदार (जीडी) कमरुद्दीन (सं. 1576229एल अब जेसी-351157एफ), 20 मई 2009

हवलदार (जीडी) महबुब खान बावरा (सं. 1575591एम अब जेसी-351158के), 11 मई 2009

हवलदार (जीडी) साहिब सिंह (सं. 1575727एल अब जेसी-351159एम), 04 मई 2009

हवलदार (जीडी) मोहम्मद फैजुल हक खान (सं. 1575762एन अब जेसी-351160एफ), 13 मई 2009

हवलदार (जीडी) धुमाल संजय निवृत्ती (सं. 1575898एक्स अब जेसी-351161के), 21 मई 2009

हवलदार (जीडी) भगवान सिंह (सं. 1576095एक्स अब जेसी-351162एम), 06 मई 2009

हवलदार (जीडी) सुरजीत सिंह (सं. 1578398एम अब जेसी-351163पी), 15 मई 2009

हवलदार (जीडी) गायकवाड मछिंद्र जयसिंगराव (सं. 1576450के अब जेसी-351164एक्स), 15 मई 2009

हवलदार (जीडी) जांभरे महादेव गणपत (सं. 1576458डब्ल्यू अब जेसी-351165ए), 19 मई 2009

हवलदार (जीडी) दावरे सुनील बचाराम (सं. 1576519एच अब जेसी-351166एच), 12 मई 2009

हवलदार (जीडी) सुखदेव सिंह (सं. 1576651एच अब जेसी-351167एल), 11 मई 2009

हवलदार (जीडी) कश्मीर सिंह (सं. 1576828एल अब जेसी-351168एन), 06 मई 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2009 से दी जायेगी।)

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) के रैंक में

हवलदार (क्लर्क जीडी) बलदेव सिंह (सं. 1579519एन अब जेसी-351133एक्स), 07 मार्च 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2009 से दी जायेगी)

हवलदार (क्लर्क जीडी) अनिल प्रसाद (सं. 5932021एल अब जेसी-351137एन), 27 अप्रैल 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2009 से दी जायेगी)

हवलदार (क्लर्क जीडी) पाटील जोतीबा मायना (सं. 1581391एम अब जेसी-351155डब्ल्यू), 01 मई 2009

हवलदार (क्लर्क जीडी) जहर सिंह यादव (सं. 1581403डब्ल्यू अब जेसी-351156वाई), 01 मई 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2009 से दी जायेगी)

हवलदार (क्लर्क जीडी) सावंत राजेंद्र रामचंद्र (सं. 1581395एच अब जेसी-351169डब्ल्यू), 01 जून 2009

हवलदार (क्लर्क जीडी) धुपेंद्र सिंह (सं. 1581474एक्स अब जेसी-351170एल), 01 जून 2009

हवलदार (क्लर्क जीडी) गौतम कुमार सरकार (सं. 1580516एम अब जेसी-351171एन), 01 जून 2009

हवलदार (क्लर्क जीडी) गोसाईं उमेदगर कैलासगर (सं. 1580908ए अब जेसी-351172डब्ल्यू), 01 जून 2009

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2009 से दी जायेगी)

अलका जोशी  
अवर सचिव

थलसेना विभाग (एम जी ओ) ई एम ई कार्मिक

सं. 505, दिनांक 15 जुलाई 2009--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं।

सूबेदार मेजर आरमोरर के रैंक में

सूबेदार अरूण कुमार सिंह (जेसी-756081के), 21 जनवरी 2009/01 जनवरी 2009 \*

सूबेदार मोहन चन्द्र (जेसी-756077एफ), 19 जनवरी 2009/01 जनवरी 2009 \*

सूबेदार मंगल सिंह (जेसी-756074एन), 21 जनवरी 2009/01 जनवरी 2009 \*

सूबेदार राज कुमार ऋषी (जेसी-756180एम), 02 फरवरी 2009/01 फरवरी 2009 \*

सूबेदार मेजर आरटीजन (ए बी एन) के रैंक में

सूबेदार लायक अहम्मद (जेसी-756895एच), 07 जनवरी 2009/01 जनवरी 2009 \*

सूबेदार मेजर आरटीजन (ईसी) के रैंक में

सूबेदार रमेश चन्द्र (जेसी-749831पी), 02 नवम्बर 2006/01 नवम्बर 2006 \*

सूबेदार अरविन्द कुमार त्यागी (जेसी-749642एल), 31 जनवरी 2009/01 जनवरी 2009 \*

सूबेदार मेजर आरटीजन (एन ई) के रैंक में

सूबेदार राम चन्द्र सिंह (जेसी-752696एक्स), 02 फरवरी 2009/01 फरवरी 2009 \*

सूबेदार मेजर डी डब्ल्यू के रैंक में

सूबेदार रन सिंह (जेसी-758160एक्स), 13 जनवरी 2009/01 जनवरी 2009 \*

सूबेदार राजेश कुमार चौधरी वी एस एम (जेसी-756602एम), 07 जनवरी 2009/01 जनवरी 2009 \*

सूबेदार मेजर रीकवरी मेक के रैंक में

सूबेदार बी लक्ष्मी चेतना केसवराव (जेसी-749179पी), 01 दिसम्बर 2008

सूबेदार मेजर एस के टी के रैंक में

सूबेदार रावेन्द्र सिंह (जेसी-751419ए), 19 दिसम्बर 2008/01 दिसम्बर 2008 \*

सूबेदार मेजर टेक के रैंक में

सूबेदार श्याम नारायण तिवारी (जेसी-753161डब्ल्यू), 17 दिसम्बर 2008/01 अगस्त 2008 \*

सूबेदार संतोष कुमार (जेसी-753346एक्स), 18 नवम्बर 2008/01 अक्टूबर 2008 \*

सूबेदार प्रेम दास मेहता (जेसी-753622पी), 01 नवम्बर 2008

सूबेदार राम लाल (जेसी-753878एक्स), 04 फरवरी 2009/01 दिसम्बर 2008 \*

सूबेदार भारथ कुमारन सी (जेसी-753816एक्स), 01 दिसम्बर 2008

सूबेदार सुशील कुमार सिंह (जेसी-753803ए), 04 दिसम्बर 2008/01 दिसम्बर 2008 \*

सूबेदार जगदेव सिंह (जेसी-753844के), 04 फरवरी 2009/01 फरवरी 2009 \*

सूबेदार मूर्ती एस (जेसी-752527डब्ल्यू), 31 जनवरी 2009/01 जनवरी 2009 \*

सूबेदार ब्रजेश्वर सारंगी (जेसी-751902के), 02 फरवरी 2009/01 जनवरी 2009 \*

सूबेदार सुल्तान सिंह पुरिया (जेसी-752210एफ), 23 जनवरी 2009/01 जनवरी 2009 \*

सूबेदार एम शिवराज (जेसी-752597पी), 21 जनवरी 2009/01 जनवरी 2009 \*

सूबेदार जनार्दन प्रसाद पाण्डे (जेसी-750353एच), 21 जनवरी 2009/01 जनवरी 2009 \*

सूबेदार नरेन्द्र सिंह भन्डारी (जेसी-752405एम), 01 जनवरी 2009

सूबेदार सुनेहरा सिंह (जेसी-752610एन), 16 जनवरी 2009/01 जनवरी 2009 \*

सूबेदार रमेश सिंह (जेसी-753699एन), 01 फरवरी 2009

सूबेदार सतीश कुमार (जेसी-752869के), 02 फरवरी 2009/01 फरवरी 2009 \*

सूबेदार राम लाल (जेसी-753886डब्ल्यू), 01 फरवरी 2009

सूबेदार स्वप्न सोम (जेसी-753907एफ), 01 फरवरी 2009

सूबेदार एम एल बी थेक्केवलियावालाप्पिल (जेसी-753904एन), 02 फरवरी 2009/01 फरवरी 2009 \*

\*पिछली तारीख वरीयता दी जाती है।

न कि कश्मीरा  
अवर सचिव

वायु शाखा

सं. 506, दिनांक 15 जुलाई 2009--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित मूल पदोन्नति करते हैं :--

भारतीय वायु सेना

संभारिकी शाखा

एयर कामोडोर के मूल रैंक में

सी एम जेटली (14060), संभा., 15 अक्टूबर 2008

## वायुसेना

सं. 507, दिनांक 15 जुलाई 2009--माननीय, राष्ट्रपति महोदय, निम्नलिखित मूल पदोन्नति करते हैं :--

## भारतीय वायु सेना

स्क्वा. ली. से विंग कमांडर के मूल रैंक पर

## एफ (पी) शाखा

एस के नायक (23758), एस के गुप्ता (23739), ए के कौशल (23740), एम चतुर्वेदी (23752), ए खनवाल्कर (23783), पी सिंह (23729), एच डी लोहानी (23766), एन बी एस ठाकुर (23790), एस खुल्लर (23744), पी दलाल (23769), ए बालासुब्रमणियम (23749), एम शर्मा (23776), आर अरविन्द (23777), आर सी पाठक (23746), एस एस बलिंग (23736), ए दीक्षित (23737), ए गुप्ता (23742), ए व्यास (23743), वी रावत (23791), वाई पी एस नेगी (23735), बी बाबू (23731), सी एच बालारेड्डी (23732), वी शर्मा (23793), एस सिंह (23738), आर के जैन (23763), वी एस पवार (23764), पी जोशी (23761), एम एस सहरावत (23756), एम ए मिनोचा (23754), एस चौधरी (23720), आर गोयल (23757), ए बंसल (23753), वी होरा (23751), वी पुत्तना (23782), पी एस निखिल (23792), एस श्रीनिवासन (23773), के जे महेन्द्र (23762), पी सिंह (23719), एस चोपड़ा (23786), के सिंह (23747), डी सिंह (23726), एस सिंह (23774), टी आर रवि (23724), ए ए सस्वादकर (23768), एन प्रभाकरन (23723)--16 दिसम्बर 2008 से प्रभावी।

## प्रशासन शाखा

ए श्रीवास्तव (23794), वी सिंह (23795), बी सिंह (23778)--16 दिसम्बर 2008 से प्रभावी।

## एफ (पी) शाखा

ए जे मैथ्यूस (23210), एस चन्द्र (23186), एस सेठ (23196)--17 दिसम्बर 2007 से प्रभावी।

## एफ (एन) शाखा

वी पांथरी (23585), डी सिंह (23584), एस एस सावंत (23588), एल के मुक्तेवी (23587), वी अवस्थी (23582), एस कुमार (23577), ए के शर्मा (23581), एच एस सेसन (23579), बी गोपीकृष्णन (23583), एम कपूर (23576), वी बी बरोत (23586), आर कन्नन (23578)--17 जून 2008 से प्रभावी।

## एफ (पी) शाखा

तिवारी एस के (22923), निगम ए (22978)--18 जून 2007 से प्रभावी।

एन विजय कुमार

विंग कमांडर

संयुक्त निदेशक

कार्मिक अफसर-3(डी)

## सेना शाखा

सं. 508, दिनांक 16 जुलाई 2009--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के आगे दी गई तारीख से उनके द्वारा सेवानिवृत्ति की साधारण आयु प्राप्त कर लेने से पूर्व उनके अनुरोध पर व्यक्तिगत कारणों से सेना सेवा से निवृत्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं :--

## नियमित सेना

## स्थायी कमीशन

(आईसी-65013) मेजर जितेन्द्र सिंह (ईन्ट), 30 जून 2007 (अपराह)

(आईसी-57543) मेजर गुरदीप सिंह (ईन्ट), 17 अगस्त 2007 (अपराह)

(आईसी-57960) मेजर प्रमोज भट्ट (ईन्ट), 24 जून 2006

(डब्ल्यूएस-00585) कैप्टन जुई बोराल (ईएमई), 19 जून 2005

(आईसी-58330) मेजर रिशिकेश वाकूला वी (ईएमई), 19 नवम्बर 2005 (पूर्वाह)

(आईसी-54350) कैप्टन रोहित भातला (एसी), 05 सितम्बर 2003 (पूर्वाह)

(आईसी-54046) मेजर अविराज नन्दन (एसी), 22 मई 2005

(डब्ल्यूएस-00659) लेफ्ट सुप्रभि भास्कर (एएससी), 22 मई 2005 (अपराह)

(आईसी-53252) कैप्टन अजीत कुमार (एओसी), 28 जुलाई 2004 (अपराह)

(आईसी-54301) कैप्टन वी प्रसाद (एओसी), 08 नवम्बर 2004 (अपराह)

(डब्ल्यूएस-00563) कैप्टन मोनिका गुप्ता (सिग्नल्स), 19 जून 2004 (अपराह)

(आईसी-52248) मेजर अरुण कुमार शादी (सिग्नल्स), 10 मई 2006 (अपराह)

(आईसी-58936) मेजर रोहित कपूर (इंजीनियर), 08 सितम्बर 2007

(आईसी-53468) कैप्टन संजय कुण्डू (इंजीनियर), 28 सितम्बर 2002 (अपराह)

(आईसी-53775) कैप्टन सन्दीप बत्रा (इंफैन्ट्री), 14 सितम्बर 2003

(आईसी-52816) कैप्टन विकास चौधरी (इंफैन्ट्री), 01 फरवरी 2004 (पूर्वाह)

(आईसी-60959) लैफ्टि विपुल चौधरी (इंफैन्ट्री), 12 अक्टूबर 2004 (अपराह)

(आईसी-57158) कैप्टन पी पी जाधव (इंफैन्ट्री), 06 अक्टूबर 2004 (अपराह)

(आईसी-59406) कैप्टन थीवा मुथु (इंफैन्ट्री), 11 अक्टूबर 2005 (अपराह)

(आईसी-59616) कैप्टन सुमित स पु (इंफैन्ट्री), 04 जनवरी 2006 (अपराह)

(आईसी-57570) मेजर बेरी डिल्लन (इंफैन्ट्री), 31 अगस्त 2005 (अपराह)

(आईसी-53955) मेजर देवेन पाण्डे (इंफैन्ट्री), 15 सितम्बर 2005

(आईसी-57791) मेजर अभिजीत सिंह, एसएम (इंफैन्ट्री), 18 अगस्त 2005 (अपराह)

एस के चक्रवर्ती  
संयुक्त निदेशक  
एमएस/पीआर

सं. 509, दिनांक 16 जुलाई 2009--राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय में निजी सचिव श्री कमल कुमार (तदर्थ), जन्म-तिथि : 03.07.1949) की अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर उन्हें 31.07.2009 (अपराह) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त करते हैं।

के. मुरली  
अवर सचिव

(वित्त प्रभाग)

सं. 510, दिनांक 16 जुलाई 2009--राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय (वित्त प्रभाग) में श्री जे. आर. कपूर, अनुभाग अधिकारी को उनकी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर दिनांक 31.07.2009 (अपराह) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त करते हैं।

राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय (वित्त प्रभाग) में श्री वी. पी. सिंह, अनुभाग अधिकारी को उनकी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर दिनांक 31.07.2009 (अपराह) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त करते हैं।

आर. सी. मीना  
सहायक वित्तीय सलाहकार (स्था.)

सेना शाखा

सं. 511, दिनांक 16 जुलाई 2009--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के आगे दी गई तारीख से उनके द्वारा सेवानिवृत्ति की साधारण आयु प्राप्त कर लेने से पूर्व उनके अनुरोध पर व्यक्तिगत कारणों से सेना सेवा से निवृत्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

(आईसी-40425) कर्नल राजीव कुमार रंजन (आर्टी), 01 मई 2007 (अपराह)

(आईसी-40923) कर्नल विजय कोहली (आर्टी), 01 जुलाई 2008 (अपराह)

(आईसी-38096) कर्नल नल्लिनथिगल राम गोपाल (आर्टी), 01 दिसम्बर 2007 (अपराह)

(आईसी-38548) ले. कर्नल सुनील कुमार कपूर (आर्टी), 02 अगस्त 2008

(आईसी-43549) कर्नल डी एस लोचम (एएडी), 18 अप्रैल 2009 (अपराह)

(आईसी-43035) कर्नल राजीव वर्मा (एएडी), 10 अगस्त 2008 (अपराह)

(आईसी-39990) कर्नल अश्विनी सिन्धवानी (एएडी), 31 अगस्त 2008 (अपराह)

(आईसी-47619) कर्नल एम के मधु मोहन (ईएमई), 29 मार्च 2009 (अपराह)

(आईसी-43741) ले. कर्नल योगेश आर्या (ईएमई), 09 जुलाई 2007 (अपराह)

(आईसी-44091) ले. कर्नल दीपक कजला (गार्ड्स), 01 जून 2008 (अपराह)

(आईसी-35911) कर्नल रंजीत सिंह (गार्ड्स), 22 मई 2008 (अपराह)

(आईसी-41893) कर्नल प्रफुल्ला जी पवार (गार्ड्स), 07 अगस्त 2008 (पूर्वाह)

(आईसी-43229) ले. कर्नल तेजिन्दर सिंह (मैक इंफैन्ट्री), 12 अप्रैल 2008 (अपराह)

(आईसी-35790) कर्नल देवदत्त चौधरी (ईसी), 28 जुलाई 2008 (अपराह)

(आईसी-30654) कर्नल मैनी अश्विनी कुमार (ईसी), 20 अप्रैल 2005 (अपराह)

एस. के. चक्रवर्ती  
संयुक्त निदेशक  
एमएस/पीआर

(सेना शाखा)

शुद्धिपत्र

सं. 512, दिनांक 17 जुलाई 2009--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियाँ करते हैं :--

ले. कर्नल से कर्नल के मूल रैंक में पदोन्नति (समयमान द्वारा)

भारत के राजपत्र अधिसूचना नम्बर 03 दिनांक 20-26 जनवरी 2007 (भाग-1, खण्ड-4) (क्रम संख्या 41) के शीर्षक 'नियमित सेना, स्थायी

आयोग' एवं उपशीर्षक ले. कर्नल से कर्नल के मूल रैंक में (समय मान द्वारा) में निम्नलिखित शुद्धिकरण किया जाता है :--

के स्थान पर :

आईसी-33724 सुखदेव कुमार, इंफैंट्री, 16 दिसम्बर 2006

पढ़ा जाए :

आईसी-33724 सुखदेव कुमार, इंफैंट्री, 16 दिसम्बर 2004

भारत के राजपत्र दिनांक 23 सितम्बर 2006 को शीर्षक 'नियमित सेना, स्थायी कमीशन' एवं उपशीर्षक से मेजर से ले. कर्नल के अधीन प्रकाशित

रक्षा मंत्रालय के राजपत्र में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :--

के बदले :

एसएल-04092 रनजोध सिंह, एसएलआरओ

पढ़ा जाए :

--रिक्त--

जसवन्त सिंह  
संयुक्त निदेशक  
एमएस-8सी



## MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 12th September 2009

No. 494 dated 13th July 2009—The President is pleased to appoint Shri Sanjay Kumar Ojha, IFS (CG : 89) as Director in the Ministry of Defence w.e.f. 30 Jun 2009 (AN) for a balance tenure out of maximum of seven years permissible on deputation at centre i.e. up to 13 Jun 2013, or until further orders, whichever is earlier. Shri Ojha counts his deputation tenure at centre w.e.f. 14 Jun 2006.

The President is pleased to appoint Smt. Dipti Mohil Chawla, IDAS (1995), Deputy Secretary, Ministry of Defence as Director in the same Ministry w.e.f. 01 Jul 2009 (FN) upto 17 Jun 2012, or until further orders, whichever is earlier.

The President is pleased to appoint Smt. Uma Nanduri, IFS (OR : 1993), Deputy Secretary, Ministry of Defence as Director in the same Ministry w.e.f. 06 Jul 2009 (FN) upto 31 Mar 2014, or until further orders, whichever is earlier.

K MURALI  
Under Secy.

## FINANCE DIVISION

No. 495, dated 13th July 2009—The President is pleased to appoint Shri R. D. Gupta, CSS of the Ministry of Defence (Finance Division) to the Selection Grade of CSS (Deputy Secretary) on regular basis w.e.f. 01 Jul 2007 on the basis of his inclusion in the Select List of Year 2007.

R C MEENA  
Asstt. Financial Adviser (Estt.)

No. 496, dated 13th July 2009—The President is pleased to appoint Shri Shekhar Agarwal, IAS (UP : 77), Financial Adviser (Acq), Member (Defence Procurement Board) and Addl. Secretary, Ministry of Defence as Additional Secretary, Department of Ex-Servicemen's Welfare, Ministry of Defence w.e.f. 10 Jul 2009 (AN).

The President is pleased to continue the appointment of Shri Surbir Singh Payal as Assistant Private Secretary to Raksha Mantri (Shri A. K. Antony) in the Pay Scale of Rs. 9,300—34,800/- + 4,800/- (Grade Pay) in Pay Band-2 with effect from the forenoon of 25 May, 2009 till Raksha Mantri demits office or until further orders, whichever is earlier.

The President is pleased to continue the appointment of Shri T. Pratap as Additional Private Secretary to Raksha Mantri (Shri A. K. Antony) in the Pay Scale of Rs. 15,600—39,100/- + 6,600/- (Grade Pay) in Pay Band-3 with effect from the forenoon of 25 May, 2009 till Raksha Mantri demits office or until further orders, whichever is earlier.

The President is pleased to continue the appointment of Shri B. Madana Mohan Reddy as Additional Private Secretary to Raksha Rajya Mantri (Shri M. M. Pallam Raju) in the Pay Scale of Rs. 15,600—39,100/- + 6,600/- (Grade Pay) in

Pay Band-3 with effect from the forenoon of 01 Jun, 2009 till Raksha Mantri demits office or until further orders, whichever is earlier.

The President is pleased to continue the appointment of Shri B. Gangadhar as Assistant Private Secretary to Raksha Rajya Mantri (Shri M. M. Pallam Raju) in the Pay Scale of Rs. 9,300—34,800/- + 4,800/- (Grade Pay) in Pay Band-2 with effect from the forenoon of 01 Jun, 2009 till Raksha Rajya Mantri demits office or until further orders, whichever is earlier.

The President is pleased to appoint Shri Tual Za Kam, Assistant borne on the strength of Ministry of Information & Broadcasting as Section Officer on regular basis in the Ministry of Defence in the scale of pay of Rs. 9,300—34,800/- plus Grade Pay of Rs. 4,800/- w.e.f. 29 Jun 2009 (FN) until further orders, consequent on inclusion of his name in the Select List of Section Officers' Grade for the year 2005 against Examination Quota on the basis of Combined Limited Departmental Competitive Examination, 2005.

2. The aforesaid appointment is subject to outcome of Court Case W.P. (C) No. 13245-60/2005 filed by Kailash Chander Vs. UOI pending in High Court, Delhi and Case No. OA 1083/2007 & MA No. 1171/2007 filed by Shri Sauranshu Sinha Vs. UOI pending in CAT, Delhi. The seniority of Shri Tual Za Kam recommended for appointment as Section Officer shall be subject to the final outcome of the Writ Petition (C) No. 4876/2007 in the matter of the Central Secretariat Stenographers' Service Association Vs. the Central Secretariat Service Direct Recruit Assistant's Association.

The President is pleased to appoint Shri Joseph Sebastian, Assistant borne on the strength of Department of Industrial Policy & Promotion as Section Officer on regular basis in the Ministry of Defence in the scale of pay of Rs. 9,300—34,800/- plus Grade Pay of Rs. 4,800/- w.e.f. 03 Jul 2009 (FN) until further orders, consequent on inclusion of his name in the Select List of Section Officers' Grade for the year 2005 against Examination Quota on the basis of Combined Limited Departmental Competitive Examination, 2005.

2. The aforesaid appointment is subject to outcome of Court Case W.P. (C) No. 13245-60/2005 filed by Kailash Chander Vs. UOI pending in High Court, Delhi and Case No. OA 1083/2007 & MA No. 1171/2007 filed by Shri Sauranshu Sinha Vs. UOI pending in CAT, Delhi. The seniority of Shri Joseph Sebastian recommended for appointment as Section Officer shall be subject to the final outcome of the Writ Petition (C) No. 4876/2007 in the matter of the Central Secretariat Stenographers' Service Association Vs. the Central Secretariat Service Direct Recruit Assistant's Association.

The President is pleased to appoint Shri Sujeet Kumar, Assistant, borne on the strength of Ministry of Road Transport and Highways as Section Officer on regular basis in the Ministry of Defence in the scale of pay of Rs. 9,300—34,800/- plus Grade Pay of Rs. 4,800/- w.e.f. 10 Jun 2009 (AN) until further orders, consequent on inclusion of his name in

the Select List of Section Officer's Grade for the year 2005 against Examination Quota on the basis of Combined Limited Departmental Competitive Examination, 2005.

2. The aforesaid appointment is subject to outcome of Court Case W.P. (C) No. 13245-60/2005 filed by Kailash Chander Vs. UOI pending in High Court, Delhi and Case No. OA 1083/2007 & MA No. 1171/2007 filed by Shri Sauranshu Sinha Vs. UOI pending in CAT, Delhi. The seniority of Shri Sujeet Kumar recommended for appointment shall be subject to the final outcome of the Writ Petition (C) No. 4876/2007 in the matter of the Central Secretariat Stenographers' Service Association Vs. the Central Secretariat Service Direct Recruit Assistants' Association.

K MURALI  
Under Secy.

#### ARMY BRANCH

No. 497, dated 13th July 2009—The President is pleased to make the following appointments :—

##### REGULAR ARMY SHORT SERVICE COMMISSION (ON PROBATION)

The undermentioned GCs of 16 University Entry Scheme (UES) are granted Short Service Commission (on probation) for the period of their training at the Indian Military Academy, Dehradun in the rank of Lt with effect from the date shown against their names under the provisions of AI 2/93, as amended for GCs of UES Course :—

IMA No., Name, SS No., Arm/Service & Date of SSC (on probation)

16 University Entry Scheme Course

U/827 Rahul Bahl (43159Y), EME, 16 Jul 2007

U/836 Reuben Paul Mathew (431168A), Engrs, 16 Jul 2007

The Arms/Services allotted to the GCs are Valid for the duration of their training only.

RAHUL SHARMA  
Lt Col  
AMS 8B

#### NAVY BRANCH

No. 498, dated 14th July 2009—Consequent to completion of period of probation satisfactorily vide MoD letter No. CP (G)/0667/Con/Med. Phy dated 19 Dec 07, the President is pleased to approve the appointment of the undermentioned Medical Physicist Group 'A' Gazetted Officers of Indian Navy in a substantive capacity with effect from the dates shown against their names :—

Name, Post & Date of confirmation

Smt Kirti Tyagi, Medical Physicist, 19 Dec 06

Smt Deboleena Mukherjee, Medical Physicist, 19 Dec 06

Consequent to completion of period of probation satisfactorily vide MoD letter No. CP (G)/0667/Con/Med. Phy dated 19 Dec 07, the President is pleased to approve the appointment of the undermentioned Occupational Therapist Group 'A' Gazetted Officer of Indian Navy in a substantive capacity with effect from the dates shown against their name :—

Name, Post & Date of confirmation

Shri Sharwan Kumar Singh, Occupational Therapist,  
30 Nov 06

P P TANEJA  
Dy. Director (G)

#### DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANIZATION

No. 499, dated 14th July 2009—The President is pleased to make the following appointments :—

The undermentioned individual(s) to be temporary Scientist(s) 'B' (Group 'A') in the Defence Research and Development Service on probation for a period of two years with effect from the dates shown against their names in the Pay Scale of Rs. 8,000-275-13,500/- (Pre-revised) :—

S. No., Name, PIN No., Estt./Lab & Date of Joining

1. Arun Prakash H (2007AB1003), ADE, Bangalore, 23 May 2007

2. Suresh Babu Goli (2007AB1308), ASL, Hyderabad, 23 May 2007

3. Ramesh Kumar Agnihotri (2007AB1233), ARDE, Pune, 23 May 2007

4. Abhishek Gupta (2006AB1196), ARDE, Pune, 27 Apr 2006

5. Gunjan Kumari (2007AB1232), ARDE, Pune, 23 May 2007

6. Moon Kumar Chetry (2005AB1060), CAIR, Bangalore, 13 Jun 2005

7. Lexy Alexander (2007AB1051), CAIR, Bangalore, 23 May 2007

8. Shibumon Alampatta (2007AB1052), CAIR, Bangalore, 07 Jun 2007

9. Himanshu Kumar Swami (2007AB1046), CAIR, Bangalore, 23 May 2007

10. Rajesh Pandurang Mendhe (2003AB1041), CFEES, Delhi, 26 Dec 2003

11. K Vijayalakshmi (2007AB1113), CVRDE, Chennai, 23 May 2007

12. Vinay Verma (2006AB1054), DARE, Bangalore, 27 Apr 2006

13. Ashutosh Panchal (2007AB1277), DMRL, Hyderabad, 23 May 2007

S. No., Name, PIN No., Estt./Lab & Date of Joining

14. Himalay Basumatary (2006AB1250), DMRL, Hyderabad, 27 Apr 2006

15. Dasary Mary Raj Kumar (2005AB1556), DMRL, Hyderabad, 09 Jun 2005

16. Mrityunjoy Hazra (2008AB1531), DMRL, Hyderabad, 03 Dec 2008

17. Sabyasachi Saha (2007AB1279), DMRL, Hyderabad, 23 May 2007

18. K Naresh (2007AB1100), DRDL, Hyderabad, 23 May 2007

19. Sanjeev Mallaram (2007AB1104), DRDL, Hyderabad, 28 May 2007

20. Santosh Kumar (2007AB1341), DRDL, Hyderabad, 04 Sep 2007

21. Maya Narsing Rao (2006AB1327), GTRE, Bangalore, 27 Apr 2006

22. Sushil Anand (2007AB1118), GTRE, Bangalore, 23 May 2007

23. Rajeev Kumar (2005AB1086), ISSA, Delhi, 14 Apr 2005

24. Ashutosh Kumar (2005AB1380), INS Shivaji, Lonavala, 13 Sep 2005

25. Biplob Kumar Sarkar (2003AB1044), ITR, Balasore, 06 Mar 2003

26. Anupama GR (2007AB1167), NPOL, Kochi, 30 May 2007

27. Dominic Ricky Fernandez (2006AB1317), NPOL, Kochi, 28 Sep 2006

28. Satya Murthy Kummari (2007AB1262), NSTL, Vishakhapatnam, 14 Nov 2007

29. Shah Nawaj Shah (2007AB1218), PXE, Balasore, 23 May 2007

30. C Bhasker Reddy (2007AB1122), RCI, Hyderabad, 23 May 2007

31. Pampana Suresh (2007AB1130), RCI, Hyderabad, 23 May 2007

32. Seela Harita (2007AB1120), RCI, Hyderabad, 23 May 2007

33. Grandhi Kiran Kumar (2008AB1284), RCI, Hyderabad, 21 May 2008

34. Kaushal Kumar (2007AB1137), RCI, Hyderabad, 09 Aug 2007

35. Hari Singh (2005AB1497), SFC, Jagdalpur, 22 Sep 2005

36. Bhujbal Dinesh Saheb Rao (2007AB1190), VRDE, Ahmednagar, 23 May 2007

37. Rakesh Kumar (2004AB1199), TBRL, Chandigarh, 12 Apr 2004

The name and other details appearing Sr. No. 168 of DGN No. DOP/08/82619/DGN/SC 'B' dated 19 Aug 2008 in respect of Shri Hari Singh (Sr. No. 35 above) may be treated as deleted.

T ABDURRASSAK  
Jt. Dir (Pers)

#### ARMY BRANCH

No. 500, dated 14th July 2009—The President is pleased to re-employ the undermentioned JCOs on the active list in the rank and date specified :—

#### REGULAR ARMY DEFENCE SECURITY CORPS

In the rank of Subedar Major (GD)

Sub Maj Pema Ram (JC-197632F), Formerly CMP, 07 Jan 2006

In the rank of Subedar (GD)

Sub Nand Ram Arya (JC-204144K), Formerly Kumaon Regt, 14 Jul 2008

Sub Dilip Kr Rajbangshi, SM (JC-185824M), Formerly Assam Regt, 14 Jul 2008

Sub Birendra Kumar Sinha (JC-750574P), Formerly EME, 14 Jul 2008

Sub Venkidachalam S (JC-438614A), Formerly Madras Regt, 14 Jul 2008

Sub Dharam Singh (JC-508563X), Formerly Sikh LI, 14 Jul 2008

Subedar Amiya Kumar Hotta (JC-842414P), Formerly Navy, 07 Sep 2008

In the rank of Nb Subedar (GD)

Nb Sub Tejinder Singh (JC-508547A), Formerly Sikh LI, 07 Sep 2008

Nb Sub Partap Singh (JC-261165Y), Formerly Arty, 01 Oct 2008

PRADEEP KUMAR  
Under Secy.

No. 501, dated 14th July 2009—On completion of his tenure as Director, Ministry of Defence on 15.04.2009 and on expiry of earned leave w.e.f. 16.04.2009 to 15.06.2009, the services of Dr. Shriprakash, IRPS(87), are placed at the disposal of the Ministry of Railways (Railway Board), w.e.f. 15.06.2009 (AN).

K MURALI  
Under Secy.

## ARMY BRANCH

No. 502, dated 14th July 2009—The President is pleased to make the following promotion :—

TERRITORIAL ARMY  
TERRITORIAL COMMISSION

## To be Capt

Lt Vivek Tondon TA-42533 (Infantry), 01 Sep 2006

Lt Joy Das Gupta TA-42577 (Infantry), 16 Dec 2004

Lt Anil Balhera TA-42606 (Infantry), 29 Jun 2008

Lt Kewal Krishan TA-42637 (Infantry), 03 Jan 2009

JAI RAJ  
Under Secy.

## ARMY BRANCH

No. 503, dated 15th July 2009—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY  
DEFENCE SECURITY CORPS

## To be Substantive Subedar Major (GD)

Sub Baban Prasad Singh (JC-177808-A), 01 Jan 2009

Sub Jag Bahadur Thapa (JC-180913-F), 01 Apr 2009

Sub Laxmi Datt (JC-222803-W), 01 Apr 2009

Sub Bakhsis Singh (JC-220202-M), 01 Apr 2009

Sub Kishor Kumar Shukla (JC-201020-X), 01 Apr 2009

Sub Sardar Singh (JC-578025-F), 01 Apr 2009

## To be Substantive Subedar (GD)

Naib Subedar Baijnath Prasad (JC-95996-Z), 01 Jan 2009

Naib Subedar Dayanand (JC-841247-X), 01 Apr 2009

Naib Subedar Devender Singh Bamel (JC-235821-X),  
01 Apr 2009

Naib Subedar Himmat Singh Rawat (JC-212930-X), 01 Apr  
2009

Naib Subedar Manbar Singh Rawat (JC-528816-H), 01 Apr  
2009

## To be Substantive Subedar Major (GD)

Sub Ajaib Singh (JC-218161-P), 01 May 2009

Sub Sarabjit Singh (JC-508008-K), 01 May 2009

Sub Bhagat Singh (JC-167104-H), 01 May 2009

## To be Substantive Subedar (GD)

Nb Sub Gope Chand (JC-236840-P), 01 Jan 2009

Nb Sub Vinodan Bhavukka Parakkandy (JC-841233-X),  
01 Mar 2009

Nb Sub Dalip Singh (JC-488870-L), 01 May 2009

Nb Sub Haroon Ali Khan (JC-449050-H), 01 May 2009

Nb Sub Onkar Singh Walia (JC-579273-W), 01 May 2009

Nb Sub Pooran Singh (JC-262532-M), 01 May 2009

Nb Sub Mempal Singh (JC-569078-Y), 01 May 2009

Nb Sub Ram Singh Panwar (JC-528021-P), 01 May 2009

## To be Substantive Subedar (Clk)

Nb Sub Mela Singh (JC-841709-Y), 01 May 2009

Nb Sub Dilawar Singh (JC-841711-W), 01 May 2009

## To be Substantive Subedar Major (GD)

Sub Yasin Khan (JC-208047-K), 01 May 2009

## To be Substantive Subedar (GD)

Nb Sub Kanak Kumar Saikia (JC-841226-F), 01 Feb 2009

Nb Sub Jagan Singh (JC-579157-F), 01 May 2009

Nb Sub Indra Raj Singh (JC-220104-M), 01 May 2009

Nb Sub Hardip Singh Sasan (JC-428270-Y), 01 May 2009

Nb Sub VB Ravi Prakash (JC-111158-H), 01 Jun 2009

Nb Sub Jagdish Prasad (JC-143671-A), 01 Jun 2009

Nb Sub Som Datt Sharma (JC-225263-M), 01 Jun 2009

Nb Sub Khin Singh (JC-841265-A), 01 Jun 2009

Nb Sub Chitang Rai (JC-202144-L), 01 Jun 2009

Nb Sub Krishna Bahadur Gurung (JC-602156-N), 01 Jun  
2009

Nb Sub Pradip Kumar Gurung (JC-612193-P), 01 Jun 2009

## To be Nb Subedar (GD)

Hav Bhagwat Lal (14319653-L now JC-842516-L), 01 May  
2009\*

\*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2009  
without effect on pay and allowances)

Hav Ram Bhaj (10436533-Y now JC-842535-W), 01 Jun  
2009\*\*

Hav Valsan Thappally (10290215-Y now JC-842537-F),  
01 Jun 2009\*\*

Hav Sugathan KC (10358063-K now JC-842548-K),  
01 Jun 2009\*\*

Hav Natar Prakash Sharma (9081827-F now JC-842543-P),  
01 Jun 2009\*\*

Hav Dev Raj (2469884-H now JC-842552-W), 01 Jun 2009\*\*

Hav Roshan Lal (10465681-M now JC-842553-Y), 01 Jun  
2009\*\*

Hav Dharm Chand Sharma (3973501-F now JC-842554-F),  
01 Jun 2009\*\*

Hav Karnail Singh (10196249-N now JC-842557-P), 01 Jun 2009\*\*

Hav Satyadeo Singh (10212096-F now JC-842565-N), 01 Jun 2009\*\*

Hav Vidya Prasad (10181041-N now JC-842568-F), 01 Jun 2009\*\*

Hav Inspector Singh (10404354-L now JC-842569-K), 01 Jun 2009\*\*

Hav Pashori Lal (2466917-X now JC-842570-Y), 01 Jun 2009\*\*

Hav Kaka Singh (10478354-A now JC-842573-M), 01 Jun 2009\*\*

Hav Rajvir Singh (10404372-N now JC-842577-H), 01 Jun 2009\*\*

Hav Ram Angad Sah (13921882-W now JC-842581-L), 01 Jun 2009\*\*

\*\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Ranga Rao Maruti Desai (10149701-M now JC-842461-M), 18 Mar 2009\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Ganga Ram (10181137-W now JC-842498-N), 01 Apr 2009\*\*

Hav Jan Singh Thapa (10243700-H now JC-842500-A), 01 Apr 2009\*\*

Hav Saroj Rao (2975166-L now JC-842501-H), 01 Apr 2009\*\*

Hav Bhanu Gurung (5343071-H now JC-842502-L), 01 Apr 2009\*\*

Hav Kunhi Kannan Pavor (10289047-Y now JC-842506-F), 01 Apr 2009\*\*

\*\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Ram Singh (4167689-A now JC-842513-X), 01 May 2009\*\*\*

Hav Suresh Bahadur Singh (10435714-X now JC-842518-W), 01 May 2009\*\*\*

Hav Mehar Singh (14318391-N now JC-842519-Y), 01 May 2009\*\*\*

Hav Karam Singh (11021163-P now JC-842520-N), 01 May 2009\*\*\*

Hav Laxman Dadu Nalwade (10149523-P now JC-842521-W), 01 May 2009\*\*\*

Hav Mehar Chand (10301778-F now JC-842526-P), 01 May 2009\*\*\*

Hav V Sundareswaran (10165228-W now JC-842527-X), 01 May 2009\*\*\*

\*\*\* (Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2009 without effect on pay and allowances)

To be Nb Subedar (Clk)

Hav Clk Jyotish Kumar Nandi (10273946-W now JC-842507-K), 30 Apr 2009\*\*\*\*

\*\*\*\* (Gtd seniority in the rank of Nb Sub (Clk) wef 01 Apr 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Clk Kunhappan K (2572503-W now JC-842509-P), 18 May 2009\*\*\*\*\*

Hav Clk A Venkata Prasad (2574656-Y now JC-842510-K), 01 May 2009\*\*\*\*\*

Hav Clk Shiv Prakash (14543252-Y now JC-842511-M), 01 May 2009\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* (Gtd seniority in the rank of Nb Sub (Clk) wef 01 May 2009 without effect on pay and allowances)

PRADEEP KUMAR  
Under Secy.

No. 504, dated 15th July 2009—The President is pleased to make following promotions :—

REGULAR ARMY  
CORPS OF ENGINEERS  
BENGAL ENGINEER GROUP

To be Nb Sub (GD)

Hav Kuldip Singh (1476793L now JC-338674A), 04 Mar 2009#

Hav Narendra Pal Singh (1477504X now JC-338675H), 02 Mar 2009@

Hav Narendra Singh (1477484P now JC-338676L), 02 Mar 2009@

Hav Darshan Singh (1477498P now JC-338677N), 02 Mar 2009@

To be Nb Sub Clk (GD)

Hav Manoj Kumar Singh (1475852A now JC-338678W), 02 Mar 2009@

Hav Kashi Ram Yadav (1477114P now JC-338679Y), 03 Mar 2009@

Hav Suresh Kumar (1476982P now JC-338680N), 02 Mar 2009@

Hav Kamal Singh Rana (1477004A now JC-338681W), 02 Mar 2009@

Hav Uma Shankar Singh (1574342F now JC-338682Y), 02 Mar 2009@

Hav Binod Singh Yadav (1574381A now JC-338683F), 03 Mar 2009@

To be Nb Sub Svy Cat

Hav Ramesh Kumar Mourya (15344296P now JC-338684K), 16 Mar 2009%

Hav Lakhbir Singh (1478482W now JC-338685M), 12 Mar 2009%

Hav Yogendra Singh (1478537P now JC-338686P), 13 Mar 2009@

Hav Shankar Singh Sijwali (1478571P now JC-338687X),  
09 Mar 2009@

#(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2008  
without effect on pay & allces).

%(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2009  
without effect on pay & allces).

@(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2009  
without effect on pay & allces).

To be Nb Sub (GD)

Hav Diwan Singh (1476733W now JC-338688A), 28 Apr  
2009\*

Hav Kashi Nath Nayak (1476948P now JC-338689H),  
15 Jan 2009§

Hav Makhan Singh (1477044F now JC-338690X), 19 Jan  
2009§

Hav Azad Singh (1477515K now JC-338691A), 14 Mar  
2009@

Hav Jagpal Singh (1477124Y now JC-338692H), 01 Apr  
2009%

Hav Hari Singh (1477516M now JC-338693L), 01 Apr 2009#

Hav Lal Singh Negi (1477567A now JC-338694N), 25 Apr  
2009#

Hav Girish Chandra (1477614M now JC-338695W), 01 Apr  
2009#

Hav Khazan Singh (1477636L now JC-338696Y), 02 Apr  
2009#

Hav Tapan Kumar Saha (1474281A now JC-338697F),  
03 Apr 2009#

Hav Jaswant Singh (1476473W now JC-338698K), 01 Apr  
2009#

Hav Jai Bhagwan (1476727H now JC-338699K), 03 Apr  
2009#

Hav Sukhdev Singh (1473628P now JC-338700W), 01 Apr  
2009#

Hav Rattan Singh (1475301P now JC-338701W), 01 Apr  
2009#

Hav Joginder Singh (1475355W now JC-338702F), 01 Apr  
2009#

Hav Upendra Kumar (1494200W now JC-338703K), 20 Apr  
2009#

Hav Gurmail Singh (1477397F now JC-338704M), 01 Apr  
2009#

Hav Islam Khan (1477689K now JC-338705P), 03 Apr 2009#

Hav Parkash Chandra Bhatt (1477720L now JC-338706X),  
01 Apr 2009#

Hav Mukesh Kumar (1477762X now JC-338707A), 04 Apr  
2009#

Hav Ashok Singh (1477778H now JC-338708H), 04 Apr  
2009#

Hav Awadh Bihari Singh (1477779L now JC-338709L),  
01 Apr 2009#

Hav Ashok Kumar (1477913L now JC-338710A), 01 Apr  
2009#

Hav Dharam Raj (1477916Y now JC-338711H), 03 Apr 2009#

Hav Kalyan Singh (1477954P now JC-338712L), 08 Apr  
2009#

Hav Vinod Kumar (1477956A now JC-338713N), 01 Apr  
2009#

Hav Ram Asrey Kushwaha (1477980W now JC-338714W),  
01 Apr 2009#

Hav Mohan Giri (1478065K now JC-338715Y), 01 Apr 2009#

Hav Jitendra Kumar Singh (1478075N now JC-338716F),  
02 Apr 2009#

Hav Balwinder Singh (1478085K now JC-338717K), 01 Apr  
2009#

Hav Gora Chand Mondal (1478107L now JC-338718M),  
01 Apr 2009#

Hav Anil Kumar Tyagi (1478171H now JC-338719P),  
03 Apr 2009#

Hav Prem Singh (1478221H now JC-338720K), 16 Apr 2009#

Hav Aminul Haque Barbhuiya (1478270L now  
JC-338721M), 16 Apr 2009#

Hav Dharambir Singh (1478283H now JC-338722P), 17 Apr  
2009#

To be Nb Sub Clk (GD)

Hav Ravindra Nath Chakraborty (1476364K now  
JC-338723X), 01 Apr 2009@

Hav Kundan Singh Nagarkoti (1477024N now  
JC-338724A), 16 Mar 2009@

Hav Suresh Chandra (1477166L now JC-338725H), 31 Mar  
2009@

Hav Rajendra Singh Negi (1477168W now JC-338726L),  
20 Apr 2009@

Hav Rajendra Singh (1477169Y now JC-338727N), 01 Apr  
2009#

Hav Bal Budhe Mahadev Sadashiv (1477173N now  
JC-338728W), 01 Apr 2009#

Hav Duwar Singh Bisht (1477201H now JC-338729Y),  
01 Apr 2009#

Hav Pradip Kumar (1477220N now JC-338730N), 06 Apr  
2009#

Hav Shyam Lal (1477223F now JC-338731W), 09 Apr  
2009#

Hav Rakesh Singh (1477282N now JC-338732Y), 11 Apr  
2009#

To be Nb Sub Svy Cat

Hav Ravi Singh (1478426X now JC-338733F), 01 Apr  
2009@

Hav Om Prakash Yadav (15344311Y now JC-338734K),  
31 Mar 2009@

Hav Sham Lal (1478554P now JC-338735M), 01 Apr 2009#

Hav Satnam Singh (1478641H now JC-338736P), 01 Apr 2009#

Hav Dilip Kumar Halder (1479206A now JC-338737X), 17 Apr 2009#

Hav Narayan Singh Gaur (1479219X now JC-338738A), 01 Apr 2009#

Hav Rakesh Kumar Rai (15344314M now JC-338739H), 29 Apr 2009#

Hav Sujeet Kumar Singh (15344340N now JC-338740X), 01 Apr 2009#

Hav Dinesh Kumar (15344302X now JC-338741A), 27 Apr 2009#

Hav Alok Mishra (15344352H now JC-338742H), 01 Apr 2009#

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2008 without effect on pay & allces).

\$(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2009 without effect on pay & allces).

@(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2009 without effect on pay & allces).

%(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 29 Mar 2009 without effect on pay & allces).

%(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2009 without effect on pay & allces).

To be Nb Sub (GD)

Hav Surinder Singh (1477205Y now JC-338743L), 09 Mar 2009\*

Hav Bahadur Singh (1478434W now JC-338744N), 01 May 2009#

Hav Ashit Dhar (1478440K now JC-338745W), 01 May 2009#

Hav Lal Singh (1478485K now JC-338746Y), 01 May 2009#

Hav Vijay Singh (1478544L now JC-338747F), 01 May 2009#

Hav Gulab Singh (1478555X now JC-338748K), 01 May 2009#

Hav Bhupendra Shah (1478574H now JC-338749M), 01 May 2009#

Hav Lakhwinder Singh (1478609N now JC-338750F), 01 May 2006#

Hav Jai Pal (1478646F now JC-338751K), 01 May 2009#

Hav Kailash Chandra Sahoo (1478709Y now JC-338752M), 01 May 2009#

Hav Surender Singh Chandel (1478726Y now JC-338753P), 01 May 2009#

Hav Partap Singh (1478751X now JC-338754X), 02 May 2009#

Hav Karan Singh (1478755N now JC-338755A), 01 May 2009#

Hav Jagan Singh (1478819N now JC-338756H), 11 May 2009#

To be Nb Sub Clk (GD)

Hav Lal Singh (1477730P now JC-338757L), 23 Apr 2009\$

Hav Prem Kumar (1477809M now JC-338758N), 01 May 2009\$

Hav Jaipal Singh Tomar (1478016F now JC-338759W), 02 May 2009\$

Hav Krishna Deo Shah (1478051K now JC-338760L), 07 May 2009\$

Hav Sunder Singh (1478144Y now JC-338761N), 05 May 2009\$

Hav Om Vir (1478454K now JC-338762W), 08 May 2009#

Hav Narendrapal Singh (1478466Y now JC-338763Y), 12 May 2009#

Hav Jagbandhu Mohanta (1478490P now JC-338764F), 01 May 2009#

Hav Satya Narayan Sharma (1478906F now JC-338765K), 06 May 2009#

Hav Vaghela Kesarbhai Devsi (1479233K now JC-338766M), 09 May 2009#

Hav Subhash Chand (1479328K now JC-338767P), 01 May 2009#

To be Nb Sub Svy Cat

Hav Yogesh Kumar Verma (15344337N now JC-338768X), 11 May 2009\$

Hav Raj Kumar Singh (15344324W now JC-338769A), 05 May 2009\$

Hav Jaibendra Singh (1481530W now JC-338770P), 18 May 2009#

Hav Sant Bax Singh (1474587H now JC-338771X), 13 May 2009#

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2009 without effect on pay & allces).

\$(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2009 without effect on pay & allces).

%(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2009 without effect on pay & allces).

BOMBAY ENGINEER GROUP

To be Nb Sub (GD)

Hav (GD) Naib Singh (No 1570106H now JC-351070A), 22 Dec 2008

Hav (GD) Lila Ram (No 1570436F now JC-351071H), 31 Dec 2008

Hav (GD) Mogis Khan (No 1570668A now JC-351072L),  
31 Jan 2009

Hav (GD) Mohammad Faruk (No 1570747P now JC-351073N), 17 Feb 2009

Hav (GD) Ram Gopal (No 1571316P now JC-351074W),  
09 Dec 2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2008  
without effect on pay and allowances)

Hav (GD) Sardul Singh (No 1572038Y now JC-351077K),  
03 Jan 2009

Hav (GD) Gian Singh (No 1572340X now JC-351078M),  
02 Jan 2009

Hav (GD) Pund Sudhir Kumar Dattatray (No 1572369A  
now JC-351079P), 30 Jan 2009

Hav (GD) Kesham Singh (No 1572479P now JC-351080K),  
04 Feb 2009

Hav (GD) Gurlal Singh (No 1572530K now JC-351081M),  
24 Jan 2009

Hav (GD) Vinai Kumar (No 1572574F now JC-351082P),  
27 Jan 2009

Hav (GD) Onkar Singh (No 1572647H now JC-351083X),  
10 Feb 2009

Hav (GD) Wagh Santosh Kashinath (No 1572671Y now  
JC-351084A), 16 Feb 2009

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2009  
without effect on pay and allowances)

Hav (GD) Rajendra Sakhare (No 15562179W now JC-351089Y), 02 Feb 2009

Hav (GD) Kamlesh Kumar (No 1572976Y now JC-351090N), 02 Feb 2009

Hav (GD) Maha Singh (No 1573220L now JC-351091W),  
02 Feb 2009

Hav (GD) Sukhwinder Singh (No 1573318Y now JC-351092Y), 09 Feb 2009

Hav (GD) Krishan Pal Singh (No 1573378N now JC-351093F), 02 Feb 2009

Hav (GD) Sita Ram Rao (No 1573440P now JC-351094K),  
02 Feb 2009

Hav (GD) Sawinder Singh (No 1573481Y now JC-351095M), 02 Feb 2009

Hav (GD) Ravindra Prakash (No 1573499P now JC-351096P), 13 Feb 2009

Hav (GD) Bhupinder Singh (No 1573577F now JC-351097X), 05 Feb 2009

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2009  
without effect on pay and allowances)

Hav (GD) Sankpal Laxman Bhanudas (No 1573952F now  
JC-351098A), 10 Mar 2009

Hav (GD) Azad Singh (No 1573989H now JC-351099H), 04  
Mar 2009

Hav (GD) Kuldeep Singh (No 1573997F now JC-351100M),  
12 Mar 2009

Hav (GD) Bhalerao Bharat Bhanudas (No 1574134M now  
JC-351101P), 12 Mar 2009

Hav (GD) Pawar Krishnat Dattu (No 1574209Y now JC-351102X), 05 Mar 2009

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2009  
without effect on pay and allowances)

To be Nb Sub (Clk GD)

Hav (Clk GD) Chella Murugan G (No 1579226H now JC-351069L), 03 Dec 2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2008  
without effect on pay and allowances)

Hav (Clk GD) Laxmi Narain (No 1581289K now JC-351075Y), 30 Jan 2009

Hav (Clk GD) Desh Raj (No 1580038N now JC-351076F),  
07 Feb 2009

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2009  
without effect on pay and allowances)

Hav (Clk GD) Nityanand Singh Kushwaha (No 1578418N  
now JC-351085H), 02 Mar 2009

Hav (Clk GD) Ram Chandra Shivhare (No 1580489N now  
JC-351086L), 04 Mar 2009

Hav (Clk GD) Mathai Thomas (No 1580499X now JC-351087N), 06 Mar 2009

Hav (Clk GD) Sajo Jose (No 1581183X now JC-351088W),  
05 Mar 2009

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2009  
without effect on pay and allowances)

To be Nb Sub (MUSN)

Hav (MUSN) Bel Bahadur Thapa (No 1572013M now JC-350728H), 24 Jan 2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 24 Jan 2008  
with pay and allowances)

To be Nb Sub (GD)

Hav (GD) Surjit Singh (No 1572648L now JC-351103A),  
27 Feb 2009

Hav (GD) Premjit Singh (No 1572695H now JC-351104H),  
03 Mar 2009

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2009  
without effect on pay and allowances)

Hav (GD) Dalbir Singh (No 1572707M now JC-351105L),  
19 Mar 2009

Hav (GD) Manmohan Singh (No 1573247H now JC-351106N), 03 Mar 2009

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2009  
without effect on pay and allowances)



Hav (GD) Kulbir Singh (No 1573656W now JC-351108Y),  
09 Mar 2009

Hav (GD) Hardev Singh (No 1573698H now JC-351109F),  
03 Mar 2009

Hav (GD) Ramesh Chandra Yadav (No 1573693K now JC-  
351110W), 18 Mar 2009

Hav (GD) Tafizul Rahman (No 1573717H now JC-351111Y),  
28 Mar 2009

Hav (GD) Ram Prakash Sharma (No 1573719N now JC-  
351112F), 24 Mar 2009

Hav (GD) Akhileshver Kumar (No 1573760K now JC-  
351113K), 16 Mar 2009

Hav (GD) Mohite Pandurang Ganpati (No 1573750A now  
JC-351114M), 03 Apr 2009

Hav (GD) Jaigade Sampat Hariba (No 1573807K now JC-  
351115P), 17 Mar 2009

Hav (GD) Mane Madhukar Sarjerao (No 1574059N now  
JC-351116X), 12 Mar 2009

Hav (GD) Suryawanshi Ankush Nivruti (No 1574082F now  
JC-351117A), 12 Mar 2009

Hav (GD) Pawar Subhash Kondiba (No 1574085P now  
JC-351118H), 02 Mar 2009

Hav (GD) Pawar Mahadeo Manikrao (No 1574104P now  
JC-351119L), 23 Mar 2008

Hav (GD) Phadtare Kisan Appaji (No 1574200K now JC-  
351120A), 16 Mar 2009

Hav (GD) Roshan Ali (No 1573636N now JC-351121H),  
04 Mar 2009

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2009  
without effect on pay and allowances)

Hav (GD) Vilas Daji Nikam (No 1575354H now JC-  
351126F), 15 Apr 2009

Hav (GD) Besh Mohammad (No 1575376F now JC-  
351127K), 21 Apr 2009

Hav (GD) Lachhman Singh (No 1574360K now JC-  
351128M), 16 Apr 2009

Hav (GD) Pargat Singh (No 1575128L now JC-351129P),  
16 Apr 2009

Hav (GD) Sapkal Bapurao Ramrao (No 1574767A now JC-  
351131M), 21 Apr 2009

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2009  
without effect on pay and allowances)

To be Nb Sub (Clk GD)

Hav (Clk GD) Kuldeep Singh Rawat (No 1574353N now  
JC-351107W), 16 Mar 2009

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2009 -  
without effect on pay and allowances)

Hav (Clk GD) Gopal Ram Jat (No 1581737L now JC-  
351122L), 01 Apr 2009

Hav (Clk GD) Rajesh Yadav (No 1581740L now JC-  
351123N), 01 Apr 2009

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2009  
with pay and allowances)

Hav (Clk GD) Margale Ravaso Laxman (No 1581388M  
now JC-351124W), 02 Apr 2009

Hav (Clk GD) Pitamber Datt (No 1581620M now JC-  
351125Y), 08 Apr 2009

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2009  
without effect on pay and allowances)

Hav (Clk GD) Shilam Gajanan Narhari (No 1581131F now  
JC-351130K), 25 Apr 2009

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2009  
without effect on pay and allowances)

To be Nb Sub (GD)

Hav (GD) Muhammad Hasim (No 1573726K now JC-  
351134A), 20 Mar 2009

Hav (GD) Darshan Singh (No 1573990X now JC-351135H),  
09 Apr 2009

Hav (GD) Pandey Dharmendra Bhayalal (No 1574232M  
now JC-351136L), 04 May 2009

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2009  
without effect on pay and allowances)

Hav (GD) Amruddin (No 1571628L now JC-351138W),  
02 May 2009

Hav (GD) Ashok Kumar (No 1571514A now JC-351139Y),  
29 Apr 2009

Hav (GD) Chavan Rajendra Gangaram (No 1572180H now  
JC-351140N), 02 May 2009

Hav (GD) Balbir Singh (No 1573558W now JC-351141W),  
29 Apr 2009

Hav (GD) Om Prakash Yadav (No 1574116K now JC-  
351142Y), 29 Apr 2009

Hav (GD) Roshan Ali (No 1574317H now JC-351143F),  
20 Apr 2009

Hav (GD) Rajesh Kumar Dwivedi (No 1574405Y now JC-  
351144K), 18 Apr 2009

Hav (GD) Bhag Singh (No 1574502W now JC-351145M),  
18 Apr 2009

Hav (GD) Sakhare Vashishata Baburao (No 1574863P now  
JC-351146P), 24 Apr 2009

Hav (GD) Gurjit Singh (No 1575049W now JC-351147X),  
18 Apr 2009

Hav (GD) Fazaru (No 1575093A now JC-351148A), 12 May  
2009

Hav (GD) Bahadur Singh (No 1575122K now JC-351149H),  
24 Apr 2009

Hav (GD) Sukha Ram Choudhary (No 1575137M now JC-  
351150X), 21 Apr 2009

Hav (GD) Ranjit Singh (No 1575180N now JC-351151A),  
18 Apr 2009

Hav (GD) Kulwant Singh (No 1575411Y now JC-351152H),  
27 May 2009

Hav (GD) Rajendra Singh (No 1575429P now JC-351153L),  
29 May 2009

Hav (GD) Shrish Chandra Azad (No 1575431M now JC-  
351154N), 05 May 2009

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2009  
without effect on pay and allowances)

Hav (GD) Kamruddin (No 1576229L now JC-351157F),  
20 May 2009

Hav (GD) Mahbub Khan Bavra (No 1575591M now JC-  
351158K), 11 May 2009

Hav (GD) Sahib Singh (No 1575727L now JC-351159L),  
04 May 2009

Hav (GD) Mohd Faijul Haq Khan (No 1575762N now JC-  
351160F), 13 May 2009

Hav (GD) Dhurnal Sanjay Nivrutti (No 1575898X now JC-  
351161K), 21 May 2009

Hav (GD) Bhagwan Singh (No 1576095X now JC-  
351162M), 06 May 2009

Hav (GD) Surjit Singh (No 1576398M now JC-351163P),  
15 May 2009

Hav (GD) Gaikwad Machindra Jaysingrao (No 1576450K  
now JC-351164X), 15 May 2009

Hav (GD) Janbhare Mahadeo Ganpat (No 1576458W now  
JC-351165A), 19 May 2009

Hav (GD) Daware Sunil Bacharam (No 1576519H now JC-  
351166H), 12 May 2009

Hav (GD) Sukhdev Singh (No 1576651H now JC-351167L),  
11 May 2009

Hav (GD) Kashmir Singh (No 1576828L now JC-351168N),  
06 May 2009

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May  
2009 without effect on pay and allowances)

To be Nb Sub (Clk GD)

Hav (Clk GD) Baldev Singh (No 1579519N now JC-  
351133X), 07 Mar 2009

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2009  
without effect on pay and allowances)

Hav (Clk GD) Anil Prasad (No 6932021L now JC-351137N),  
27 Apr 2009

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2009  
without effect on pay and allowances)

Hav (Clk GD) Patil Jotiba Mayana (No 1581391M now  
JC-351155W), 01 May 2009

Hav (Clk GD) Jahar Singh Yadav (No 1581403W now JC-  
351156Y), 01 May 2009

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May  
2009 with pay and allowances)

Hav (Clk GD) Sawant Rajendra Ramchandra (No 1581395H  
now JC-351169W), 01 Jun 2009

Hav (Clk GD) Bhupinder Singh (No 1581474X now JC-  
351170L), 01 Jun 2009

Hav (Clk GD) Goutam Kumar Sarkar (No 1580516M now  
JC-351171N), 01 Jun 2009

Hav (Clk GD) Gosai Umedgar Kailasgar (No 1580908A  
now JC-351172W), 01 Jun 2009

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2009  
with pay and allowances)

ALKA JOSHI  
Under Secy.

#### CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGR BRANCH

No. 505, dated 15th July 2009—The President is pleased  
to make the following Appointment/Promotions :—

To be Sub Maj ARMR

Sub Arun Kumar Singh (JC-756081K), 21 Jan 2009/01 Jan  
2009\*

Sub Mohan Chandara (JC-756077F), 19 Jan 2009/01 Jan  
2009\*

Sub Mangal Singh (JC-756074N), 21 Jan 2009/01 Jan 2009\*

Sub Raj Kumar Rishi (JC-756180M), 02 Feb 2009/01 Feb  
2009\*

To be Sub Maj ARTZN AVN

Sub Laik Ahemmad (JC-756895H), 07 Jan 2009/01 Jan  
2009\*

To be Sub Maj ARTZN (EC)

Sub Ramesh Chander (JC-749831P), 02 Nov 2006/01 Nov  
2006\*

Sub Arvind Kumar Tyagi (JC-749642L), 31 Jan 2009/01  
Jan 2009\*

To be Sub Maj ARTZN (NE)

Sub Ram Chandra Singh (JC-752696X), 02 Feb 2009/01  
Feb 2009\*

To be Sub Maj DW

Sub Ran Singh (JC-758160X), 13 Jan 2009/01 Jan 2009\*

Sub Rajesh Kumar Choudhary V S M (JC-756602M), 07  
Jan 2009/01 Jan 2009\*

To be Sub Maj Rec Mech

Sub B Lakshmi Chenna Kesavarao (JC-749179P), 01 Dec  
2008

To be Sub Maj SKT

Sub Ravendra Singh (JC-751419A), 19 Dec 2008/01 Dec  
2008\*

To be Sub Maj Tech

Sub Shyam Narayan Tiwari (JC-753161W), 17 Dec 2008/  
01 Aug 2008\*

Sub Santosh Kumar (JC-753346X), 18 Nov 2008/01 Oct 2008\*

Sub Prem Dass Mehta (JC-753622P), 01 Nov 2008

Sub Ram Lal (JC-753878X), 04 Feb 2009/01 Dec 2008\*

Sub Bharatha Kumaran C (JC-753816X), 01 Dec 2008

Sub Sushil Kumar Singh (JC-753803A), 04 Dec 2008/01 Dec 2008\*

Sub Jagdev Singh (JC-753844K), 04 Feb 2009/01 Feb 2009\*

Sub Murthy S (JC-752527W), 31 Jan 2009/01 Jan 2009\*

Sub Brajeswar Sarangi (JC-751902K), 02 Feb 2009/01 Jan 2009\*

Sub Sultan Singh Poriya (JC-752210F), 23 Jan 2009/01 Jan 2009\*

Sub M Shivaraj (JC-752597P), 21 Jan 2009/01 Jan 2009\*

Sub Janardhan Prasad Pandey (JC-750353H), 21 Jan 2009/01 Jan 2009\*

Sub Narender Singh Bhandari (JC-752405M), 01 Jan 2009

Sub Sunehra Singh (JC-752610N), 16 Jan 2009/01 Jan 2009\*

Sub Ramesh Singh (JC-753699N), 01 Feb 2009

Sub Satish Kumar (JC-752869K), 02 Feb 2009/01 Feb 2009\*

Sub Ram Lal (JC-753886W), 01 Feb 2009

Sub Swappan Som (JC-753907F), 01 Feb 2009

Sub M L B Thekkevaliyavalappil (JC-753904N), 02 Feb 2009/01 Feb 2009\*

\*(Gtd ante date seniority)

N K KASHMIRA  
Under Secy.

#### AIR BRANCH

No. 506, dated 15th July 2009—The President is pleased to make the following substantive promotion:—

INDIAN AIR FORCE  
LGS BRANCH

TO BE SUBSTANTIVE AIR CMDE (LGS Branch)

Rank, Name, Number, BR, Date

Air CMDE (ACTG) CM Jaitly, (14060), LGS, 15 Oct 2008

K V SHANKAR  
Joint Director of Personnel (Officers)-2(B)

#### AIR FORCE

No. 507, dated 15th July 2009—The President is pleased to make the following Substantive Promotions:—

INDIAN AIR FORCE

Sqn Ldr to be Substantive WG CDR

F (P) BRANCH

SK Naik (23758), SK Gupta (23739), AK Kaushal (23740), M Chaturvedi (23752), A Khanwalker (23783), P Singh (23729), HD Lohani (23766), NBS Thakur (23790), S Khullar (23744), P Dalal (23769), A Balasubramaniam (23749), M Sharma (23776),

R Arvind (23777), RC Pathak (23746), SS Balling (23736), A Dixit (23737), A Gupta (23742), A Vyas (23743), V Rawat (23791), YPS Negi (23735), B Babu (23731), CH Balareddy (23732), V Sharma (23793), S Singh (23738), RK Jain (23763), VS Pawar (23764), P Joshi (23761), MS Sehrawat (23756), MA Minocha (23754), S Choudhary (23720), R Goel (23757), A bansal (23753), V Hora (23751), V Puttanna (23782), PS Nikhil (23792), S Srinivasan (23773), KJ Mahendra (23762), P Singh (23719), S Chopra (23786), K Singh (23747), D Singh (23726), S Singh (23774), TR Ravi (23724), AA Saswadkar (23768), N Prabhakaran (23723)

w.e.f. 16 Dec 2008

#### ADM BRANCH

A Shrivastav (23794), V Singh (23795), B Singh (23778)

w.e.f. 16 Dec 2008

#### F (P) BRANCH

AJ Mathews (23210), S Chandra (23186), S Seth (23196),

w.e.f. 17 Dec 2007

#### F (N) BRANCH

V Panthri (23585), D Singh (23584), SS Sawant (23588), LK Muktevi (23587), V Avasthy (23582), S Kumar (23577), AK Sharma (23581), HS Sasson (23579), B Gopikrishnan (23583), M Kapoor (23576), VB Barot (23586), R Kannan (23578)

w.e.f. 17 Jun 2008

#### F (P) BRANCH

Tiwari SK (22923), Nigam A (22978)

w.e.f. 18 Jun 2007

N VIJAY KUMAR  
Wing Commander  
Joint Director  
Personnel Officers-3(D)

#### ARMY BRANCH

No. 508, dated 16th July 2009—The President is pleased to permit the under mentioned officers to resign their commission from the Army Service wef dates noted against them, earlier than their normal age of retirement at their own request for their personal reasons:—

#### REGULAR ARMY

#### PERMANENT COMMISSION

IC No., Rank, Name, Arms/Ser, Date of Resignation

IC-65013 Maj Jitander Singh, INT, 30 Jun 2007 (AN)

IC-57543 Maj Gurdeep Singh, INT, 17 Aug 2007 (AN)

IC-57960 Maj Pramod Bhatt, INT, 24 June 2006

IC-58330 Maj Rishikesh Vakula V, EME, 19 Nov 2005 (FN)

IC-54350 Capt Rohit Bhatla, AC, 05 Sept 2003 (FN)

IC-54046 Maj Aviraj Nandan, AC, 22 May 2005

IC-53252 Capt Ajit Kumar, AOC, 28 July 2004 (AN)

IC-54301 Capt V Prasad, AOC, 08 Nov 2004 (AN)

IC-52248 Maj Arun Kumar Sharda, Sigs, 10 May 2006 (AN)

IC-58936 Maj Rohit Kapoor, Engrs, 08 Sept 2007 (AN)  
 IC-53468 Capt Sanjay Kundu, Engrs, 28 Sept 2002 (AN)  
 IC-53775 Capt Sandeep Batra, Inf, 14 Sept 2003  
 IC-52816 Capt Vikas Chaudhary, Inf, 01 Feb 2004 (FN)  
 IC-60959 Lt Vipul Choudhary, Inf, 12 Oct 2004 (AN)  
 IC-57158 Capt PP Jadhav, Inf, 06 Oct 2004 (AN)  
 IC-59406 Capt Theiva Muthu, Inf, 11 Oct 2005 (AN)  
 IC-59616 Capt Sumit Sapru, Inf, 04-01-2006 (AN)  
 IC-57570 Maj Barry Dhillon, Inf, 31 Aug 2005 (AN)  
 IC-53955 Maj Deven Pandey, Inf, 15 Sept 2005  
 IC-57791 Maj Abhijeet Singh, SM, Inf, 18 Aug 2005 (AN)

SK CHAKRABORTY  
 Jt Dir/MS PR

No. 509, dated 16th July 2009—The President is pleased to retire Shri Kamal Kumar, Private Secretary (Ad-hoc) (DOB : 03.07.1949) Ministry of Defence from Government Service with effect from 31.7.2009 (AN) on attaining the age of superannuation.

K MURALI  
 Under Secy.

No. 510, dated 16th July 2009—The President is pleased to retire Shri J. R. Kapoor, Section Officer, Ministry of Defence (Finance) from Government Service with effect from 31.7.2009 (AN) on attaining the age of superannuation.

The President is pleased to retire Shri V. P. Singh, Section Officer, Ministry of Defence (Finance) from Government Service with effect from 31.07.2009 (AN) on attaining the age of superannuation.

R C MEENA  
 Assistant Financial Adviser (Estt.)

#### ARMY BRANCH

No. 511, dated 16th July 2009—The President is pleased to permit the under mentioned officers to retire from the Army Service wef dates noted against them, earlier than their normal age of retirement at their own request for their personal reasons:—

#### REGULAR ARMY PERMANENT COMMISSION

IC No., Rank, Name, Arms/Ser, Date of Premature Retirement

IC-40425 Col Rajiv Kumar Ranjan, Arty, 01 may 2007 (AN)

IC-40923 Col Vijay Kohli, Arty, 01 July 2008 (AN)

IC-38096 Col Nallinthigal Ram Gopal, Arty, 01 Dec 2007 (AN)

IC-38548 Lt Col Suneel Kumar Kapur, Arty, 02 Aug 2008

IC-43549 Col DS Locham, AAD, 18 Apr 2009 (AN)

IC-43035 Col Verma Rajiv, AAD, 10 Aug 2008 (AN)

IC-39990 Col Ashwani Sindhvani, AAD, 31 Aug 2008 (AN)

IC-47619 Col MK Madhu Mohan, EME, 29 Mar 2009 (AN)

IC-43741 Lt Col Yogesh Arya, EME, 09 July 2007 (AN)

IC-44091 Lt Col Deepak Kajla, Guards, 01 Jun 2008 (AN)

IC-35911 Col Ranjeet Singh, Guards, 22 May 2008

IC-41893 Col Prafulla G Pawar, Guards, 07 Aug 2008 (AN)

IC-43229 Lt Col Tejinder Singh, Mech Inf, 12 Apr 2008 (AN)

IC-35790 Col Devdutta Choudhury, AEC, 28 July 2008 (AN)

IC-30654 Col Maini Ashwani Kumar, AEC, 20 Apr 2005 (AN)

SK CHAKRABORTY  
 Joint Director  
 MS/PR

#### ARMY BRANCH CORRIGENDA

No. 512, dated 17th July 2009—The President is pleased to make the following promotion :—

#### REGULAR ARMY PERMANENT COMMISSION

#### LT COLS TO BE SUBSTANTIVE COL (BY TIME SCALE)

In the Hindi Version of the Gazette of India, Ministry of Defence Notification No. 03 dated 20-26 Jan 2007 (Part-I Section-IV) (Ser No. 41) under heading "Regular Army Permanent Commission" and Sub-heading "Lt Cols to be Substantive Col (By Time Scale)", the following amendment is made :—

FOR : IC-33724 - Sukhdev Kumar Inf 16 Dec 2006

READ : IC-33724 - Sukhdev Kumar Inf 16 Dec 2004

In the Gazette of India, Ministry of Defence Notification published on 23 Sep 2006 under the heading "Regular Army, Permanent Commission", and sub heading "Maj to be Lt Col" the following amendment is made :—

FOR : SL 04092 RANJODH SINGH, SL RO

READ : BLANK

JASWANT SINGH  
 Jt Dir  
 MS-8C